



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 23—फरवरी 29, 2008 (फाल्गुन 4, 1929)

No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 23—FEBRUARY 29, 2008 (PHALGUNA 4, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 जनवरी 2008

सं. पी एफ. 23-आर(3)/जी एन-6020/ए-एन-1/2008--नागालैंड सरकार से प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर श्री आर. कोदण्डरामन ने इस सचिवालय में 15,100-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में निदेशक के रूप में, 17 जनवरी, 2008 के पूर्वाह्न से पुनः कार्यभार संभाल लिया है।

अभिजीत कुमार, निदेशक

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560094, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 6/1(1)/2007-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-

एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	पुनित स्वरूप	25.05.2007
2.	सोनिया निभानी	08.10.2007
3.	सतीश के. त्रिपाठी	31.08.2007

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

गए पदों पर स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई	नियुक्ति की तिथि
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	के. एम. शशिधरन	प्रधान का. व सा. प्रशासन	15.06.2007
2.	जी. सूरियनारायणन	वरिष्ठ क्रय व भण्डार अधिकारी	03.07.2007
3.	बी. सुब्रमण्यश्वर राव	वरिष्ठ प्रधान क्रय व भण्डार	26.07.2007
4.	आर. एम. परगी	क्रय व भण्डार अधिकारी	18.09.2007
5.	के. भानुविक्रमन नायर	प्रशासन अधिकारी	18.09.2007
के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव			

सं. 6/1(1)/2007-1---राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	संदीप आई. पटेल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
2.	बी. एस. जगदीश	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
3.	एम. पुन्न राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
4.	बी. डी. लैड	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
5.	शालीनी उज्ज्वल गंगले	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
6.	मोनिका गुप्ता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
7.	राकेश एच शाह	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
8.	एम. आर. पटेल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी

1	2	3	4
9.	बी. बी. सवरलिया	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
10.	धात्री एच. त्रिवेदी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
11.	पी. बी. नागमणी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
12.	एस. एस. श्रोत्र्यास्तव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
13.	यू. एस. यधुनन्दन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
14.	एस. जी. नगर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
15.	विपिन जैन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
16.	डीएनवीएसएसएस मूर्ति	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
17.	संदीप घोराई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
18.	धवाल अविनाश वतंक	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.बी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी
19.	राजेश के. नगरानी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.बी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी
के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव			

सं. 6/1(1)/2007-1---राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	पी. एल. कुलकर्णी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
2.	ई.पी. बालसुब्रमण्यम	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
3.	तपन मिश्र	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी
4.	अरुन्दती मिश्र	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी

1	2	3	4
5.	डॉ. मारकण्ड पी. ओज़ा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
6.	डॉ. बीना कुमारी. एस	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
7.	पी. नारायण बाबु	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
8.	टी. वी. एस. राम	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
9.	एन. बी. शाह	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
10.	ब्रिजेश कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
11.	वी. ए. घाय	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
12.	बी. एम. दर्जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
13.	एस. जी. वैश्रव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
14.	एम. सी. कोलाडिया	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
15.	एस. मंधिरा मूर्ती	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
16.	मिना रॉय	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
17.	एच. वी. पाण्डया	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
18.	जिगनेश भट्ट	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 6/1(1)/2007-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	जे. एल. मेहता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
2.	आर. आर. भावसार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ

1	2	3	4
3.	बाल सत्यनारायण	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
4.	बरखा गुप्ता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
5.	अनिता पाण्डे	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
6.	जोल्ली धार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
7.	संजीव मेहता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
8.	आरती सरकार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
9.	सी. एन. लाल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
10.	रघुनाथ गौडा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
11.	के. एम. परमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
12.	ए. के. गज्जर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
13.	जे. बी. रामी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
14.	दीप्ती आर. पटेल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
15.	नीता बी. शेट	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
16.	जयप्रसाद. पी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
17.	आर. पी. प्रजापति	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
18.	एन. के. सोला	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 6/1(2)/2007-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों ने अपने निवर्तन

आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्र. सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	वी. मुरलीधर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच	31.07.2007
2.	सी. एम. नगरानी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	31.08.2007
3.	एस. वी. मेहता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	31.08.2007
4.	सो. पी. शाह	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	31.08.2007
5.	डी. डी. हलबे	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	31.07.2007
6.	एन. के. पंचाल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	30.09.2007
7.	वी. ए. घाई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	30.09.2007
8.	डॉ. चिन्ता रंजन मैटी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	30.09.2007
9.	डॉ. एस. एम. भण्डारी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	31.07.2007
10.	एम. के. अग्रवाल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	31.07.2007
11.	के. वी. आर. प्रभाकर राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	30.09.2007
12.	सी. जी. कुलकर्णी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	31.07.2007
13.	पी. वी. अन्डू	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	30.06.2007

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 6/1(2)/2007-1--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों का सेवा से त्यागपत्र प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के अपराह्न से स्वीकार करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	सौमेन्द्र मुखापट्टाय	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	02.07.2007
2.	कुन्दु सैकत. डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	24.07.2007
3.	मुकेश गुप्ता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	30.07.2007
4.	अजित अरनह	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	14.08.2007

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 9/1(1)/2007-1--इस विभाग के दिनांक 12.11.2007 की समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, इन्सैट मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन के श्री परमेश्वरन के संबंध में क्रम सं. 1 में दिया गया पदनाम वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी. के बदले वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी पड़ा जाए।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 दिसम्बर 2007

सं. ए-19016/267/2005-प्रशा. III--योजना आयोग की दिनांक 25.07.2007 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.12.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/5/2007-सीएस-II के अनुसरण में, राष्ट्रपति जी, सीएसएसएस काडर की प्रधान निजी सचिव सुश्री जानकी वैकटेश्वरन की योजना आयोग में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में रूपए 12,000--16,500/- के वेतनमान में तदर्थ पदोन्नति की अवधि दिनांक 30.06.2008 तक या नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव उपलब्ध होने तक अथवा आगामी आदेशों तक जी भी पहले हो बढ़ाते हैं।

सुश्री जानकी वैकटेश्वरन को वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है एवं उन्हें लगातार इसी पद पर रहने या सीएसएसएस के ग्रेड में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

अनिल मल्होत्रा, उप सचिव

दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. ए-20011/2/90-प्रशा. V--कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 जनवरी, 2008 के आदेश सं. 5/20/2007-सी.एस.-I (डेस्क) के अनुसरण में योजना आयोग में अनुभाग अधिकारी श्री डी. वी. के. राव की सेवाएं अवर सचिव (सीएसएस के ग्रेड I के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्ति हेतु दिनांक 18 जनवरी, 2008 पूर्वान्त से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सौंपी जाती हैं।

अनिल मल्होत्रा, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 2008

सं. ए-12025/8/2007-प्रशा. II--राष्ट्रपति जी, श्री राजेश कुमार भठेजा, नियमित अनुसंधान सहायक (संख्यिकी) योजना आयोग को 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में 18.1.2008 के पूर्वान्त से 12.7.2010 तक की अवधि के लिए या नियमित पदधारी के उसके मूल पद पर प्रत्यर्पित होने तक, जो भी पहले हो, योजना आयोग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर आर्थिक अधिकारी (परियोजना मूल्यांकन) [समूह 'ख' राजपत्रित] के पद पर नियुक्त करते हैं।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2008

सं. ए-43011/04/2008-प्रशासन-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 जनवरी, 2008 के आदेश सं. 5/20/2007-सी.एस. I (डेस्क) का अनुपालन करते हुए, व्यय विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के

नियमित अनुभाग अधिकारी (सी.एस.एल. सं. 6040) श्री सुभाष चन्दर ने दिनांक 29 जनवरी, 2008 के पूर्वाह्न से योजना आयोग में 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में अवर सचिव (तदर्थ) का पदभार संभाल लिया है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

#### भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 फरवरी 2008

सं. 193/22/13/2007 (एकेएम)/1530--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर भारत निर्वाचन आयोग में प्रधान सचिव, श्री ए. के. मजूमदार, दिनांक 31.01.2008 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गये।

स्टैंडहोप युहलुंग, सचिव

सं. 193/22/14/2007 (एसएस)/1578--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर भारत निर्वाचन आयोग में सहायक निदेशक (राजभाषा), श्रीमती शकुन्तला साही, दिनांक 31.01.2008 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गयीं।

स्टैंडहोप युहलुंग, सचिव

#### विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 सितम्बर 2006

सं. ए-31015/2/2001-प्रशा. I (वि.का.)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.3.1988 के का. जा. सं. 18011/1/86-स्था. (घ) में दिए गए अनुदेशों के अनुसरण में और सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार, श्री ए. के. शर्मा, सहायक सरकारी काउंसिल को दिनांक 15.10.1993 से विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग में स्थायी रूप से सहायक सरकारी अधिवक्ता (साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क") के पद पर नियुक्त किया जाता है।

किरन पुरी, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2008

सं. ए-32015/3/2006-प्रशा. IV (वि.का.)--इस विभाग के दिनांक 18.07.2007 के समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.01.2008 के का. जा. सं. 5/8/2006-सीएस-II के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित ग्रेड ग आशुलिपिकों की विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक

सेवा संवर्ग में, रु. 6500--10,500/- के वेतनमान में, तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्ति को, दिनांक 30.06.2008 तक छः महीने की अवधि के लिए अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड क और ख (विलयित) नियमित आशुलिपिकों के उपलब्ध होने तक, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :--

क्र. सं.	नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान
1	2	3
(सर्वश्री)		
1.	श्रीमती नवलजीत के. घई	वि.का., पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उधार पर
2.	वी. एस. राठौर	वि.वि.
3.	टी. एस. पांडियन	वि.का. शाखा सचिवालय, चैन्नै
4.	वीरेन्द्र कु. जाटव	वि.वि.
5.	सुश्री राजलक्ष्मी श्रीधर	वि.का., शाखा सचिवालय, मुंबई
6.	प्रदीप मुखर्जी	वि.का., शाखा सचिवालय, कोलकाता
7.	एन. के. ग़ोवर	वि.का., के. अभि. अनु.
8.	ओम प्रकाश शर्मा	वि.का.
9.	सुश्री बिमला वर्मा	वि.का.
10.	वी.आर.डी. नम्बूदरीपाद	वि.वि.
11.	आर.वी.एस. भानुप्रसाद	वि.वि.
12.	सुश्री नीलम खत्री	वि.का.
13.	मो. हुसैन	वि.वि., प्रतिनियुक्ति आधार पर गोपनीय अधीक्षक
14.	एस. के. चट्टराज	वि.का., शाखा सचिवालय, कोलकाता
15.	सुश्री पी. के. सतीदेवी	वि.का.
16.	सतीश चन्द्र	वि.का., विधि आयोग
17.	सुश्री मंजू बाला मेहता	वि.का., विधि आयोग
18.	एस. सी. अग्रवाल	वि.का., विधि आयोग
19.	सुश्री शशी गुप्ता	वि.का.
20.	सुश्री इंदु चोपड़ा	वि.का., विधि आयोग
21.	ए. के. सूद	वि.का., विधि आयोग
22.	आर. के. वैद	वि.वि.
23.	महेश कुमार (अनु.जाति)	वि.का.
24.	सुरेन्द्र सिंह (अनु.जाति)	वि.वि.
25.	सुश्री एस. के. धवन	वि.वि.
26.	आर. एस. शुक्ला	वि.का., ए.टी.एफ.ई.
27.	भवानी प्रसाद	वि.वि.
28.	सुश्री शिखा खुराना	वि.का.

1	2	3
29.	रंजीत सिंह	वि.वि.
30.	आर. करुणाकरण	वि.का.
31.	राजेन्द्र कुमार (अनु.जाति)	वि.वि.
32.	सुश्री अनिता (अनु.जाति)	वि.का.
33.	नेत्र पाल सिंह (अनु.जाति)	वि.का.के. अभि. अनु.

2. उपरोक्त प्रोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर की गई है और इससे उपरोक्त अवधि के लिए उन्हें ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा ग्रेड का और ख (विलयित) (निजी सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. ए-32013/6/2007-प्रशा. I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को ग्रेड-1 अधिकारी (अवर सचिव) के रूप में गृह मंत्रालय में वेतनश्रेणी रु. 10,000-325-15,200/- में पूर्णतः तदर्थ आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं:--

1.	श्री राम रान	21.01.2008 (पूर्वाह्न)
2.	श्री टी. नरसिम्हा	21.01.2008 (पूर्वाह्न)
3.	श्री के. नटराजन	21.01.2008 (पूर्वाह्न)
4.	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा	23.01.2008 (अपराह्न)

2. तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्वयिन है:--

- तदर्थ पदोन्नति अनिश्चित काल तक ग्रेड में निरंतर बने रहने अथवा निर्यात नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता के दावे का अधिकार प्रदान नहीं करती।
- तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
- उपर्युक्त नियुक्ति आदेश केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान बेंच, नई दिल्ली के दिनांक 11.01.2007 के एम.ए. सं. 2170/2006, ओ.ए. सं. 2793/2005, एम.ए. सं. 2710/2005 के विषय पर आधारित होगा।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 5 फरवरी 2008

सं. 20/जी/2851-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री कमलेश चन्द्र जैन, के.स.से. (1976), को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में दिनांक 5 फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 फरवरी 2008

सं. 14040/29/2006-यूटीएस-II--इस मंत्रालय की दिनांक 2.3.2007 की अधिसूचना सं. 14016/17/2006-यूटीएस-II में आंशिक आशोधन करते हुए संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 के नियम 10 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप-नियम (2) के खंड (ग) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस के तत्कालीन निरीक्षक और वर्तमान में दानिप्स के प्रविष्टि ग्रेड अधिकारी, श्री गुरमीत सिंह को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उनके कनिष्ठ को दी गई प्रोन्नति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	रैंज सं.	जन्म की तारीख	प्रोन्नति की तारीख
1.	श्री गुरमीत सिंह	डी-1/605	20.01.1957	30.10.2006

जे. के. सिंह, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली 110001, दिनांक 13 फरवरी 2008

सं. I-18011/1/2008-आई पी एस-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम-3 का द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री निशीथ मिश्रा, आई पी एस (महाराष्ट्र : 2004) को दिनांक 06 सितम्बर, 2006 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती है।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली-3, दिनांक 1 फरवरी 2008

सं. 13041/5/2007-रा.भा. (नी.स.)--राष्ट्रपति, श्री नंदकिशोर चावला, सहायक निदेशक (तदर्थ), श्रीमती उषा रानी अग्रवाल, अनुवाद एवं प्रशिक्षण अधिकारी तथा चैनपाल सिंह, अनुवाद एवं प्रशिक्षण अधिकारी को राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में नियमित सहायक निदेशक के पद पर रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में दिनांक 16.1.2008 के पूर्वाह्न से पदोन्नति के आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. एस. केमवाल, उप सचिव (नीति)

(अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय)

नई दिल्ली 110011, दिनांक 4 फरवरी 2008

सं. ए-19011/1/2008-अ.रा.प.--राष्ट्रपति, श्री रणधीर सिंह को अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय में उप सचिव के रूप में दिनांक 29 जनवरी, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

बी. बी. गुप्ता, अवर सचिव

## नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर 2007

सं. ए-11015/2/2005-डी.जी.सी.डी. (स्था.)--राष्ट्रपति, श्री सी. एस. सुन्धन, ए.पी.ओ., स.सी.बल को नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय, गृह मंत्रालय में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 11 सितम्बर, 2007 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (प्र. एवं सम.) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के. कोशी, भा.पु.से. महानिदेशक  
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल एवं नागरिक सुरक्षा

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक जनवरी 2008

सं. ए-32013/2/2008-प्रशासन-I (राज.)--गृह मंत्रालय से उनके स्थानांतरण के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, के.स.से. के ग्रेड I अधिकारी, श्री के. के. बजाज को 21 जनवरी, 2008 (अपराह्न) से, अगले आदेशों तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

सं. ए-32013/2/2008-प्रशासन-I (राज.)--राष्ट्रपति, वाणिज्य विभाग के के.स.से. संवर्ग के स्थायी अनुभाग अधिकारी, श्री एस. एस. शुक्ला को 21 जनवरी, 2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर के.स.से. के ग्रेड I अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

सं. ए-32013/2/2008-प्रशासन-I (राज.)--राष्ट्रपति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के के.स.से. संवर्ग के स्थायी अनुभाग अधिकारी, श्री आर. डी. तालुकदार को 21 जनवरी, 2008 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर के.स.से. के ग्रेड I अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110067, दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. 13019/12/2007-अकादमी (डेस्क)--राष्ट्रपति, श्री आकाश दीप चक्रवर्ती, आई.पी.ओ.एस. (94) को 18.5.2007 (पूर्वाह्न) से चार वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक इनमें जो भी पहले हो, 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में उप निदेशक (उप सचिव स्तर) के रूप में नियुक्त करते हैं।

चानन राम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 2008

सं. 14012/02/2006-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीखों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थाई करते हैं:--

क्रं. सं.	अधिकारी का नाम	बैच	स्थायीकरण की तारीख
1.	श्री लोकेश कुमार सिंह	2003	01.09.2005
2.	सुश्री बन्दना प्रेयषी	2003	01.09.2005
3.	श्री अनुपम कुमार	2003	01.09.2005
4.	श्री असांगबा चूबा एओ	2003	01.09.2005

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2008

सं. 14015/02/2007-अ.भा.से.(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में विहित उपबंधों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2007 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के संयुक्त ए जी एम यू टी संवर्ग के गोवा खण्ड में एक (01) रिक्ति को भरने के लिए दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में चयन समिति द्वारा तैयार की गई गोवा राज्य सिविल सेवा के सदस्य, श्री छोल्लेटी प्रभाकर (जन्म तिथि 09.06.1956) के नाम वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा के ए जी एम यू टी संवर्ग के गोवा खण्ड की वर्ष 2007 की चयन सूची अनुमोदित कर दी है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/02/2007-अ.भा.से.(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप-नियम (1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, ए जी एम यू टी संवर्ग के गोवा राज्य सिविल सेवा के सदस्य, श्री छोल्लेटी प्रभाकर को वर्ष 2007 की रिक्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) के तहत ए जी एम यू टी संवर्ग के गोवा खण्ड में उनका आबंटन करते हैं।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

दिनांक 6 फरवरी 2008

सं. 14015/21/2007-अ.भा.से.(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में विहित उपबंधों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के तमिलनाडु संवर्ग में क्रमशः 04, 06 और 05 रिक्तियों को भरने के लिए चयन समिति द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर,

2007 को आयोजित अपनी बैठक में तैयार की गई तमिलनाडु संवर्ग की राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों वाली वर्ष, 2005, 2006 और 2007 की चयन सूचियां दिनांक 23 जनवरी, 2008 को अनुमोदित कर दी है:--

#### चयन सूची-2005

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
	(सर्वश्री)	
1.*	टी. के. पोन्नूसामी	05.06.1953
2.#	जवाहर शान्ताकुमार	14.11.1953
3.	एम. राजेन्द्रन	17.05.1957
4.	महेशान काशीराजन	25.09.1962

\* क्र. सं. 1 पर दिए गए नाम को चयन-सूची में अंतिम रूप से शामिल किया गया है जो उनके विरुद्ध लम्बित आपराधिक कार्यवाहियों में अनापत्ति और राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र दिए जाने के अधधीन है।

# क्र. सं. 2 पर दिए गए नाम को चयन-सूची में अंतिम रूप से शामिल किया गया है जो उनके विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाहियों में अनापत्ति और राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र दिए जाने के अधधीन है।

#### चयन सूची-2006

0क*0	टी. के. पोन्नूसामी	05.06.1953
0ख#0	जवाहर शान्ताकुमार	14.11.1953
1.	टी. सौन्देय	11.05.1955
2.	वी. पलानीकुमार	10.03.1959
3.	एम. जयरामन	24.10.1955
4.	वी. के. षण्मुगम	08.09.1955
5.	आर. सुदालयकण्णन	19.05.1960
6.	यू. सगायम	03.07.1962

\* क्र. सं. 1 पर दिए गए नाम को चयन-सूची में अंतिम रूप से शामिल किया गया है जो उनके विरुद्ध लम्बित आपराधिक कार्यवाहियों में अनापत्ति और राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र दिए जाने के अधधीन है।

# क्र. सं. 2 पर दिए गए नाम को चयन-सूची में अंतिम रूप से शामिल किया गया है जो उनके विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाहियों में अनापत्ति और राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र दिए जाने के अधधीन है।

(0 क्र. सं. 0क और 0ख पर दिए गए नाम को भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 5(5) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार चयन-सूची की वर्तमान स्थिति के अलावा शामिल किया गया है।

#### चयन सूची-2007

0*0	टी. के. पोन्नूसामी	05.06.1953
1.	श्रीमती मेथिली के. राजेन्द्रन (अ.जा.)	06.06.1964
2.	एम. एस. षण्मुगम	23.06.1966
3.	श्रीमती रीटा हरीश ठक्कर	28.06.1966
4.	श्रीमती बी. जोशी निर्मला	30.05.1964
5.	श्रीमती जयश्री मुरलीधरन	24.01.1967

\* क्र. सं. 0 पर दिए गए नाम को चयन-सूची में अंतिम रूप से शामिल किया गया है जो उनके विरुद्ध लम्बित आपराधिक कार्यवाहियों में अनापत्ति और राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र दिए जाने के अधधीन है।

0 क्र. सं. 0 पर दिए गए नाम को भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 5(5) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार चयन-सूची की वर्तमान स्थिति के अलावा शामिल किया गया है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/21/2007-अ.भा.से.(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप-नियम (1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, तमिलनाडु राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को वर्ष, 2005, 2006 और 2007 की रिक्तियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत तमिलनाडु संवर्ग में उनका आबंटन करते हैं।

#### चयन सूची-2005 से नियुक्ति

क्र. सं.	अधिकारी का नाम
	(सर्वश्री)
1.	एम. राजेन्द्रन
2.	महेशान काशीराजन

#### चयन सूची-2006 से नियुक्ति

1.	टी. सौन्देय
2.	वी. पलानीकुमार
3.	एम. जयरामन
4.	वी. के. षण्मुगम
5.	आर. सुदालयकण्णन
6.	यू. सगायम



## चयन सूची-2007 से नियुक्ति

1. श्रीमती मैथिली के. राजेन्द्रन (अ.जा.)
2. एम. एस. षण्मुगम
3. श्रीमती रीटा हरीश ठक्कर
4. श्रीमती बी. जोथी निर्मला
5. श्रीमती जयश्री मुरलीधरन

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

## विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 2007

सं. 23/पी.ए.-II/2007--राष्ट्रपति, भा.वि.से. (ख) के ग्रेड-I के निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा के वरीय वेतनमान में उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तिथि से नियुक्त करती हैं :--

क्र.	अधिकारी का नाम	भा.वि.से. के वरीय वेतनमान में पदोन्नति की तारीख
------	----------------	---

(सर्वश्री)

1.	के. एन. मोहनकुमारन	2 नवम्बर, 2007
2.	मधुकर असनानी	2 नवम्बर, 2007
3.	जितेंद्र के. शर्मा	2 नवम्बर, 2007
4.	जे. एस. वरियाह	2 नवम्बर, 2007
5.	राकेश कुमार	2 नवम्बर, 2007
6.	आर. एस. बडवाल	2 नवम्बर, 2007
7.	वी. के. वी. रमण	2 नवम्बर, 2007
8.	एफ. जेवियर खाखा	2 नवम्बर, 2007
9.	आशुतोष के. अग्रवाल	2 नवम्बर, 2007

2. उल्लिखित अधिकारी वरीय वेतनमान में अपनी पदोन्नति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

3. उपर्युक्त नियुक्तियाँ इन पदोन्नतियों पर प्रभाव डालने वाले न्यायालय के किसी निर्णय के अध्वधीन होंगी।

अखिनो विमल, अवर सचिव

दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. 25/पी.ए.-II/2007--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर बुखारेस्ट में भारतीय दूतावास में प्रथम सचिव, श्री किशन स्वरूप भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से 31 दिसम्बर, 2007 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

अखिनो विमल, अवर सचिव (एफ.एस.पी.)

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 2008

सं. क्यू./पी.ए.-I/20/2008--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री पी. एस. रे, भारत के राजदूत कोपेनहेगन, 31 जनवरी, 2008 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

रूद्रा गौरव श्रेष्ठ, अवर सचिव (एफ.एस.पी.)

सं. 4/पी.ए.-II/2008--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर येरेवान में भारतीय दूतावास में प्रथम सचिव, श्री जी. एल. बाली, भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से 31 जनवरी, 2008 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

रूद्रा गौरव श्रेष्ठ, अवर सचिव (एफ.एस.पी.)

सं. क्यू./पी.ए.-I/21/2008--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्रीमती नवरेखा शर्मा, भारत की राजदूत जकार्ता, 31 जनवरी, 2008 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

रूद्रा गौरव श्रेष्ठ, अवर सचिव (एफ.एस.पी.)

सं. क्यू./पी.ए.-I/22/2008--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री ओ. पी. भोला, 31 जनवरी, 2008 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

रूद्रा गौरव श्रेष्ठ, अवर सचिव (एफ.एस.पी.)

सं. क्यू./पी.ए.-I/23/2008--राष्ट्रपति, कोपेनहेगन में भारत के राजदूत तथा भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I के अधिकारी श्री पी. एस. रे का 31 जनवरी 2008 (पूर्वाह्न) को सेवानिवृत्त होने के पश्चात् कोपेनहेगन में भारतीय राजदूत के रूप में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I में 01.02.2008 से 29.02.2008 तक एक माह की अवधि के लिए पुनर्नियुक्त करते हैं।

रूद्रा गौरव श्रेष्ठ, अवर सचिव (एफ.एस.पी.)

दिनांक 4 फरवरी 2008

सं. क्यू./पी.ए.-I/24/2008--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के ग्रेड-III में इस समय कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को 01 फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-II में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करती हैं:--

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के उपरांत ग्रेड
------	----------------	---------------	--------------------------

1. क्यू. सरीता बाली भा.वि.से. का ग्रेड-III भा.वि.से. का ग्रेड-II

2. भा.वि.से. के ग्रेड-II में पदोन्नति पर उक्त अधिकारी ने भा.वि.से. के ग्रेड-III में 01.02.2008 के पूर्वाह्न से कार्यभार त्याग दिया है और उसी

तारीख के पूर्वाह्न से भा.वि.से.के ग्रेड-I में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रुद्रा गौरव श्रेष्ठ, अवर सचिव (एफ.एस.पी.)

सं. क्यू/पी.ए.-1/25/2008--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के ग्रेड-III में इस समय कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को 01 फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-II में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करती हैं:--

क्र. सं. नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के उपरान्त ग्रेड
1. श्री मनबीर सिंह	भा.वि.से. का ग्रेड-III	भा.वि.से. का ग्रेड-II

2. भा.वि.से. के ग्रेड-II में पदोन्नति पर उक्त अधिकारी ने भा.वि.से.के ग्रेड-III में 01.02.2008 के पूर्वाह्न से कार्यभार त्याग दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न के भा.वि.से.के ग्रेड-II में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रुद्रा गौरव श्रेष्ठ, अवर सचिव (एफ.एस.पी.)

कार्यालय : प्रोटोकोल उप-प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 2008

सं. डी-III/460/सी एफ-11/2007--भारत की राष्ट्रपति ने श्री रथीन्द्र नाथ दत्ता की कोलकाता में हंगरी गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री रथीन्द्र नाथ दत्ता के कौंसली क्षेत्राधिकार में पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्य होंगे।

डी. के. शर्मा, प्रोटोकोल उप-प्रमुख (एफ)

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2008

सं. 01/2008 फा. सं. ए-12022/1/2006-(पीए)--राष्ट्रपति, श्री के. मोहनदास, भा.प्र.से. (केरल : 74) की 04.02.2008 के पूर्वाह्न से प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. के. भाटिया, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2008

सं. 03 : (फा. सं. ए-38013/11/2007-प्रशासन-1)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के

अधिकारी श्री एस. के. घोष अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

दिनांक 9 जनवरी 2008

सं. 04 : (फा. सं. ए-19011/2/2008-प्रशासन-1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री आशुतोष दीक्षित, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 87) को दिनांक 19.12.2007 (अपराह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव (टी.पी.एल.-II) के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

सं. 05 : (फा. सं. ए-19011/1/2008-प्रशासन-1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री के. के. झा, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा : 78) को दिनांक 03.01.2008 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव (पुनरीक्षा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

दिनांक 10 जनवरी 2008

सं. ए-12026/10/2006-प्रशासन-1--सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि पदधारी संयुक्त सचिव (पुनरीक्षण आवेदन) की अनुपस्थिति में श्रीमती राशीदा हुसैन, संयुक्त सचिव (कोफेपोसा), तुरन्त प्रभाव से और अगले आदेशों तक, लिंक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगी।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2008

सं. 06 : (फा. सं. ए-12026/9/2005-प्रशासन-1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री उन्मेष बाघ, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) को दिनांक 20.11.2007 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेश तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. के. त्यागी, निदेशक (मुख्यालय)

सं. 07 : (फा. सं. ए-12026/9/2005-प्रशासन-1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री नितिन सैनी, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) को दिनांक 20.11.2007 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेश तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. के. त्यागी, निदेशक (मुख्यालय)

दिनांक 23 जनवरी 2008

सं. 08 : (फा. सं. ए-19012/1/2005-प्रशासन-1)--इस विभाग की दिनांक 11.1.2005 की अधिसूचना सं. 6 के क्रम में भारत के राष्ट्रपति, श्री जे. पी. चन्दाकर, उप सचिव, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 93) को दिनांक 01.07.2007 (पूर्वाह्न) से उनके पांच वर्षों की शेष अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 04.10.2010 तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. के. त्यागी, निदेशक (मुख्यालय)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 2008

भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापना

सं. 06/2008 (फा. सं. ए-38012/08/2008-प्रशा.-II)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत श्री के. एस. नायर, मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बंगलौर की दिनांक 30.1.2008 (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु सूचना को स्वीकार करते हैं।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. 07/2008 फा. सं. ए-38012/33/2007-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, श्री मीर हैदर अली, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) मुख्यालय, लखनऊ की दिनांक 1.2.2008 (अपराह्न) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को स्वीकार करते हैं।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2008

सं. ए-11011/7/2003-प्रशा.1ए--इस विभाग की दिनांक 17 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. ए-11011/7/2003 के क्रम में श्री पी. आर. देवी प्रसाद, एनएफएसजी (आईईएस : 82) की वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 14,300-450-22,400/- रु. के वेतनमान में विशेष कार्याधिकारी के पद पर तदर्थ प्रतिनियुक्ति को 19.01.2008 से 31.3.2008 तक की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है।

यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, स्थापना (डी) की दिनांक 16 जुलाई, 2007 की डायरी सं. 3399/सीएफ/07 के तहत प्रदत्त सहमति से जारी किया जाता है।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

सं. ए-12011/01/2006-प्रशा.2--राष्ट्रपति, इस विभाग की दिनांक 09.08.2007 की अधिसूचना सं. ए-12011/01/2006-प्रशा.2 के

अनुक्रम में वित्त संवर्ग के सीएसएसएस के निम्नांकित प्रधान निजी सचिवों की वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में समान क्षमता में नियुक्ति को 01.01.2008 से 30.06.2008 तक और छः माह की अवधि के लिए या नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ आधार पर बढ़ाते हैं :--

(i) श्री एम. एस. शर्मा

(ii) श्री आर. प्रदीप कुमार

2. उपर्युक्त अधिकारियों की तदर्थ प्रोन्नति से उन्हें नियमित नियुक्ति या सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में अनिश्चित काल के लिए बने रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण या अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए पात्रता हेतु नहीं की जाएगी और चयन सूची के उम्मीदवार उपलब्ध होने पर उन्हें प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2008

सं. ए-19019/जी-132/2007-प्रशा.1ए--राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में कार्यरत वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्रीमती शशि आहुजा को दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 (पूर्वाह्न) से 6 महीने की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पदाधिकारी की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, तदर्थ पदोन्नति आधार पर 7,500-250-12,000/- रु. के वेतनमान में राजपत्रित समूह 'ख' में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

दिनांक 17 जनवरी 2008

सं. ए-12011/7/2006-प्रशा.1ए--राष्ट्रपति, इस विभाग की दिनांक 17 नवम्बर, 2006 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में श्री तपन कुमार मन्ना, प्रबन्धक, भारत सरकार प्रेस संतरागाछी की इस विभाग के बजट प्रेस में प्रबन्धक (मुद्रणालय) के पद पर 10,000--15,200/- रु. के वेतनमान में तदर्थ नियुक्ति को 16.11.2007 से एक वर्ष की अवधि के लिए या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी 2008

सं. ए-15012/2/2006-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 6 के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने, श्री देबी प्रसाद मिश्रा को 1 जनवरी, 2008 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनकी 62 वर्ष की आयु होने तक

अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, रांची, के पद पर नियुक्त किया है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2008

सं. ए-12034/4/2004-स्थापना--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में नियमित अनुसंधान अधिकारी, श्री राजीव कुमार को 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर दिनांक 1 फरवरी, 2008 से छः महीने की अवधि के लिए अथवा प्रतिनियुक्ति से नियमित पदधारी के प्रत्यावासन तक अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (समूह 'क') के पद पर नियुक्ति को जारी रखते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से राजीव कुमार को अनिश्चितकाल तक ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में बरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अमरीक सिंह, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2008

सं. ए-32013/1/2006-प्रशा. II--राष्ट्रपति, इस विभाग के कर्मचारी निरीक्षण एकक के निम्नलिखित सहायक उप निदेशकों की तदर्थ पदोन्नति को 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में 19.1.2008 से 18.1.2009 तक एक वर्ष की आगे की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद पर भरे जाने तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, उप निदेशक के रूप में और आगे बढ़ाते हैं :--

क्र. सं.	नाम
	(सर्वश्री)
1.	बी. एल. शर्मा
2.	रवीन्द्र कुमार

2. उपर निर्दिष्ट अधिकारियों की बढ़ाई गयी तदर्थ पदोन्नति उन्हें उक्त पद पर नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गयी सेवा को अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।

मीताली घोष, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 जनवरी 2008

सं. ए-32013/8/2007/गुप ए/इंड/101-10--इस कार्यालय के दिनांक 01.01.2008 की अधिसूचना संख्या ए-32013/8/2007/गुप ए/इंड/3744-58 के आगे राष्ट्रपति भारतीय सिविल लेखा सेवा (गुप 'ए')

भर्ती नियमावली के अनुसरण में श्री जगत सिंह, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (गुप 'बी') को 8,000-275-15,500/- रुपये के वेतनमान में भासिलेसे (गुप 'ए') के कनिष्ठ समयमान में उनके द्वारा कनिष्ठ समयमान में पदभार ग्रहण करने की तारीख से परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

परिवीक्षा की अवधि कनिष्ठ समयमान में पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष के लिए होगी।

संजीव मिश्रा, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 2007

सं. ए-32011/1/12006-स्थापना--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18 सितम्बर, 2007 के का. जा. संख्या 7/16/2007-सी एस-1 (एस) के अनुसरण में राष्ट्रपति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संवर्ग में धारित केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी एस एस) के सहायक, श्री अनिल कुमार जैन (चयन सूची-1993/सामान्य) को 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में 27.9.07 से 31.12.07 तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध कराए जाने अथवा अगले आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक तदर्थ आधार पर इस मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

2. अनुभाग अधिकारी के पद पर श्री अनिल कुमार जैन की नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और यह इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा सी एस एस के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के पद में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

अरूणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

दिनांक 1 नवम्बर 2007

सं. ए-32011/1/2004-स्थापना : (भाग)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.10.07 के आदेश सं. 4/4/07-सी.एस.1 के अनुसरण में राष्ट्रपति, ग्रेड-1 अधिकारी, श्री श्रीप्रकाश (अवर सचिव) को 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में 31.10.07 के अपराह्न से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर है और यह इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा सी एस एस के चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

अरूणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

दिनांक 21 जनवरी 2008

सं. ए-20011/29/2007-स्थापना--सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 15.11.07 के आदेश सं. 12015/5/2006-एस एस एस के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री एस. एस. चहल,

को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में 24.12.07 के पूर्वाह्न से सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-II के रूप में नियुक्त करती है।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

दिनांक 24 जनवरी 2008

सं. ए-12011/11/2006-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8 जनवरी, 2008 के का. जा. सं. 5/8/2006-सी.एस. II की शर्तों के अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संवर्ग में धारित सी एस एस एस के निम्नलिखित वर्ग "ग" आशुलिपिकों की तदर्थ नियुक्ति 6,500--10,500/- रुपए के वेतनमान में 30.6.08 तक की अगली छः महीने की अवधि के लिए अथवा सी एस एस एस के नियमित आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) उपलब्ध कराए जाने अथवा अगले आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक आगे बढ़ाती है :--

1. श्री सुरेश चन्द्र
2. श्री पी. आई. एस. मनिकतला
3. श्री एस. के. ठाकुर
4. श्री जे. के. टंडन
5. श्रीमती सोहिनी निगम
6. श्री भोज सिंह

2. उपर्युक्त नियुक्तियां पूर्णतः तदर्थ आधार पर हैं और यह उपर्युक्त उल्लिखित व्यक्तियों को नियमित नियुक्ति आदि का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2008

सं. ए-19011/10/2000-स्थापना-1--राष्ट्रपति, श्री प्रभ शरण सिंह जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अवर सचिव हैं, को 18 जनवरी, 2008 से पूर्वाह्न के 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग में तदर्थ आधार पर उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. पूर्वोक्त तदर्थ नियुक्ति दिनांक 26.11.2007 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 4/4/2007-सी.एस. I (डेस्क) में उल्लिखित नियम व शर्तों के अधीन है।

आर. के. कुरील, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2008

सं. ए-19011/03/2008-स्थापना-1--राष्ट्रपति, सुश्री बंदना बनर्जी, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा की नियमित अनुभाग अधिकारी हैं, को

28 जनवरी, 2008 के अपराह्न से 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त तदर्थ नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/17/2007-सी.एस. I (डेस्क) दिनांक 27.09.2007 में उल्लिखित नियम व शर्तों के अधीन है।

रोशन लाल, अवर सचिव

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर 2006

सं. ए-12011/8/2007-मानव संसाधन-II--राष्ट्रपति, श्री संजय कुमार सिन्हा, आईएफएस (जे एण्ड के : 93) को 05.11.2007 (पूर्वाह्न) से चार वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर उर्वरक विभाग में उप सचिव नियुक्त करते हैं।

एम. सुब्रह्मण्यन, अवर सचिव

दिनांक 10 जनवरी 2008

सं. क-23011/1/2007-मा.स-II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18.09.2007 और 01.01.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/16/2007-सी एस-I (एस) में दिए गए अनुदेशों के अनुसार राष्ट्रपति उर्वरक विभाग तथा रसायन व पेट्रोरसायन विभाग के संयुक्त संवर्ग में 1993 की चयन सूची के नियमित सहायक श्री कैलाश को दिनांक 10.01.2008 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय सचिवालय सेवा में रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं। उनकी यह नियुक्ति दिनांक 30.06.2008 तक अथवा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा पदोन्नति की सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से केन्द्रीय सचिवालय सेवा का नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध कराए जाने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।

2. इस तदर्थ पदोन्नति से इस ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने या नियमित चयन सूची में शामिल होने या अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3. श्री कैलाश को रसायन एवं पेट्रोलियम विभाग में दिनांक 10.1.2008 (पूर्वाह्न) से तैनात किया जाता है।

एम. सुब्रह्मण्यन, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2008

सं. ए-15012/1/2005-प्रशासन--कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06 फरवरी, 2008 के आदेश सं. 5/20/2007-सी.एस.-I (डेस्क) के तहत सी.एस.एस. के ग्रेड-I (अवर सचिव) में पदोन्नति हो जाने के परिणामस्वरूप, कोयला मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी, श्री चन्द्र शेखर प्रसाद को 07.02.2008 (पूर्वा.) से

अगले आदेशों तक, कोयला मंत्रालय में पूर्णतया तदर्थ आधार पर, अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

वी. एस. राणा, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 2008

सं. ए-12015/2/2003-प्रशासन--इस विभाग की दिनांक 27.7.2007 की अधिसूचना के क्रम में श्री सुखदेव शर्मा और श्रीमती जे. बग्गा तथा श्री के. एन. कोहली की स्टेनो ग्रेड 'क और ख' (आमेलित) (निजी सचिव) के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि को 30.6.2008 तक या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित स्टेनो ग्रेड 'क और ख' (आमेलित) के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाया जाता है। इस नियुक्ति की अन्य शर्तें और निबंधन वही होंगी जो पहले जारी की जा चुकी हैं।

2. इसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8 जनवरी, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/8/2006-सी एस-II के तहत प्राप्त उनकी अनुमति में जारी किया जाता है।

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

दिनांक 8 फरवरी 2008

सं. ए-12011/10/2003-प्रशासन--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.11.2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/18/2006-सी एस-II और नागरिक विमानन महानिदेशक कार्यालय के दिनांक 28.1.2008 के कार्यालय आदेश संख्या 3/2008 (मिसिल संख्या ए-20016/3/77-ई-II/वोल्यूम-III) के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित ग्रेड 'ग' और नागरिक विमानन महानिदेशक के कार्यालय में तदर्थ स्टेनो ग्रेड 'क और ख' (विलयित) श्री आर. के. कोहली को 28.01.2008 (पूर्वाह्न) से 30.6.2008 तक या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित ग्रेड 'क और ख' (विलयित) के उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उपभोक्ता मामले विभाग में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर स्टेनो ग्रेड 'क और ख' (विलयित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें अनिश्चित काल के लिए ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा स्टेनो ग्रेड 'क और ख' (विलयित) में वरिष्ठता आदि का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. ए-19014/14/84-प्रशा.1(ए)--राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'जी' को अधिवर्षिता की आयु में पहुंचने

पर 31 जनवरी, 2008 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

1. डा. (श्रीमती) मालती गोयल

2. श्री सी. आर. मूर्ति

एस. पी. कतनौरिया, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जनवरी 2008

सं.ए-32012/1/2007-पी-1(.)--राष्ट्रपति, डॉ. सी. कालियापेरुमल वैज्ञानिक "डी" (12,000-375-16,500/-) को संशोधित सुनम्य पूरक योजना के अंतर्गत पदोन्नति पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में वैज्ञानिक "ई" के रूप में 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 14.1.2008 पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

मोहन लाल वाधवानी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 जनवरी 2008

सं. ए-12012/4/2005-पी.11(.)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 जनवरी, 2008 के आदेश सं. 5/20/2007-सी.एस.1 (डेस्क) द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुभाग अधिकारी, श्रीमती मावती रावत को उनके अवर सचिव के ग्रेड में नियुक्ति हेतु अनुमोदन के परिणामस्वरूप पूर्णतया तदर्थ आधार पर सी.एस.एस. के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के रूप में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 17.01.2008 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ प्रोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगी :

- (i) यह तदर्थ नियुक्ति उस श्रेणी में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल करने अथवा ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेंगे।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति, बिना कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है।
- (iii) यह नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, प्रधान शाखा के नई दिल्ली के एम. ए. सं. 2170/2006, ओ. ए. सं. 2793/2005 एम. ए. सं. 2710/2005 के दिनांक 11.01.2007 के आदेश के अध्वधीन होगी।

प्रेमा मोहन, अवर सचिव

सं. ए-12012/4/2005-पी.11(.)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 जनवरी, 2008 के आदेश सं. 5/20/2007-सी.एस. I (डेस्क) द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी, श्री हेमन्त कुमार श्रीवास्तव को उनके अवर सचिव के ग्रेड में नियुक्ति हेतु अनुमोदन के परिणामस्वरूप पूर्णतया तदर्थ आधार पर सी.एस.एस. के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के रूप में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 23.01.2008 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ प्रोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होंगी :

- (i) यह तदर्थ नियुक्ति उस श्रेणी में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल करने अथवा ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति, बिना कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है।
- (iii) यह नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, प्रधान शाखा के नई दिल्ली के आदेश एम. ए. सं. 2170/2006, ओ. ए. सं. 2793/2005 एम. ए. सं. 2710/2005 के दिनांक 11.01.2007 के आदेश के अध्वधीन होगी।

प्रेमा मोहन, अवर सचिव

दिनांक 4 फरवरी 2008

सं. ए-12012/4/2005-पी. II (.)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 जनवरी, 2008 के आदेश सं. 5/20/2007-सी.एस. I (डेस्क) द्वारा परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग, के अनुभाग अधिकारी, श्री पी. एस. राना को उनके केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव के ग्रेड में नियुक्ति हेतु अनुमोदन के परिणामस्वरूप पूर्णतया तदर्थ आधार पर सी.एस.एस. के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 29.01.2008 अपराह्न से अगले आदेशों तक के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ प्रोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होंगी :

- (i) यह तदर्थ नियुक्ति उस श्रेणी में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल करने अथवा ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति, बिना कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है।
- (iii) यह नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, प्रधान शाखा के नई दिल्ली के आदेश एम. ए. सं. 2170/2006, ओ. ए. सं. 2793/2005 एम. ए. सं. 2710/2005 के दिनांक 11.01.2007 के आदेश के अध्वधीन होगी।

प्रेमा मोहन, अवर सचिव

दिनांक 5 फरवरी 2008

सं. ए-32012/2/2001-पी. II (.)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8 जनवरी, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/8/2006-सी.एस. II के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' की तदर्थ नियुक्ति की अवधि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में आशुलिपिक

ग्रेड 'क' और 'ख' (संविलीन) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के रूप में उनके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि के लिए अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा से नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है:--

क्रम सं.	नाम	वह अवधि जिसके लिए समय बढ़ाने की मंजूरी दी गई है
	(श्रीमती/श्री)	
1.	नीलम तलवार	31.12.2007 से 30.06.2008
2.	सुषमा चोपड़ा	31.12.2007 से 30.06.2008
3.	उषा रानी सेठी	31.12.2007 से 30.06.2008
4.	विजय कुमार	31.12.2007 से 30.06.2008
5.	अनुराधा निप्पानी	31.12.2007 से 30.06.2008
6.	आर सी सेठ	31.12.2007 से 30.06.2008
7.	अयज कुमार	31.12.2007 से 30.06.2008
8.	राजेश सजलानी	31.12.2007 से 30.06.2008
9.	श्याम किशोर	31.12.2007 से 30.06.2008
10.	एस. टी. मूरजानी	31.12.2007 से 30.06.2008
11.	उर्मिल नांगिया	31.12.2007 से 30.06.2008
12.	राज कुमारी	31.12.2007 से 30.06.2008
13.	वेद राम	31.12.2007 से 30.06.2008
14.	एम. एस. भकुनी	31.12.2007 से 30.06.2008
15.	प्रमोद शर्मा	31.12.2007 से 30.06.2008
16.	राजेन्द्रन ए. आर.	31.12.2007 से 30.06.2008
17.	पी. के. माहना	31.12.2007 से 30.06.2008
18.	वी. के. पंथारी	31.12.2007 से 30.06.2008
19.	संजय सूद	31.12.2007 से 30.06.2008
20.	वी. के. खुराना	31.12.2007 से 30.06.2008
21.	सुनीता एलावाधी	31.12.2007 से 30.06.2008
22.	रूप किशोर	31.12.2007 से 30.06.2008
23.	महेन्द्र कुमार	31.12.2007 से 30.06.2008

2. यह तदर्थ प्रोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होंगी :

- (i) यह तदर्थ नियुक्ति उस श्रेणी में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल करने अथवा सी एस एस एस ग्रेड 'क' और 'ख' (संविलीन) (निजी सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

- (ii) तदर्थ नियुक्ति, बिना कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है।

प्रेमा मोहन, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. ए.12025/5/2006-सी.एच.एस.-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. कुमारी उषा रानी को 16 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपसंवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान) के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

राम लाल, अवर सचिव

सं. ए.12025/23/2007-सी.एच.एस.-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. (श्रीमती) शालिनी मलहोत्रा को 26 नवम्बर, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपसंवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II (सूक्ष्म जीव विज्ञान) के पद पर विशेषज्ञ ग्रेड-II (सूक्ष्म जीव विज्ञान) के रूप में नियुक्त करते हैं।

राम लाल, अवर सचिव

सं. ए.12025/22/2007-सी.एच.एस.-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. (श्रीमती) रेणुका गोयल को 27 सितम्बर, 2007 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपसंवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II (सूक्ष्म जीव विज्ञान) के पद पर विशेषज्ञ ग्रेड-II (सूक्ष्म जीव विज्ञान) के रूप में नियुक्त करते हैं।

राम लाल, अवर सचिव

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2008

सं. ए-22013/1/2007-स्थापना-I--राष्ट्रपति, विधायी विभाग में अनुभाग अधिकारी श्री सुधीर कुमार को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.01.2008 के आदेश सं. 5/20/2007-सी.एस.1 (डेस्क) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में तदर्थ आधार पर उनकी पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप 18.01.2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में अवर सचिव के रूप में पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं। तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

1. तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिये चुनिंदा सूची में शामिल होने या ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा।

2. तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय कारण बताए बगैर समाप्त किया जा सकता है।

पी. जी. कलाधरण, अवर सचिव

दिनांक 29 जनवरी 2008

सं. ए-38013/05/2007-स्थापना-I--राष्ट्रपति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में अनुभाग अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर कार्यरत श्रीमती मंजीत कौर जौली का निधन 04.01.2008 को हो गया। स्वर्गीया श्रीमती मंजीत कौर जौली का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की पंजी से 04.01.2008 से हटा दिया गया है।

पी. जी. कलाधरण, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 2008

सं. 12022/1/2007-स्था.1--वरिष्ठता कोटे से वर्ष 2004 के लिए सी एस एस की आशुलिपिक ग्रेड (क) और (ख) (आमेलित) की चयन सूची में इनका नाम शामिल होने के उपरान्त, राष्ट्रपति, श्रीमती चंदर कला बावारी, सी एस एस की नियमित आशुलिपि क ग्रेड "ग" मूल संवर्ग सूचना और प्रसारण मंत्रालय को कृषि और सहकारिता विभाग में नियमित आधार पर 14.12.2007 के पूर्वाह्न से आशुलिपिक ग्रेड क और ख (आमेलित) (निजी सचिव) 6,500--10,500/- रु. के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 24 जनवरी 2008

सं. 27-2761/2007-स्था.1--राष्ट्रपति, डा. सी. वी. आनन्द बोम, आई ए एस (केरल : 77) को कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग में अवर सचिव के पद पर 22,400-525-24,500/- रुपये के वेतनमान में 23 जनवरी, 2008 के पूर्वाह्न से नियुक्ति करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 28 जनवरी 2008

सं. 12022/9/2007-स्था.1--राष्ट्रपति ने श्री रंजन खन्ना, आई आर एस (सी एण्ड सी ई एस 94) को कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग में माननीय कृषि राज्य मंत्री (श्री कान्ति लाल भूरिया) के निजी सचिव के पद पर उप सचिव स्तर पर 14.01.2008 के पूर्वाह्न से 5 वर्ष की अवधि या उस समय तक जब वे मंत्री के निजी सचिव के पद पर कार्य करना बंद कर दें अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव



दिनांक 29 जनवरी 2008

सं. 27-2760/2008-स्था. I--राष्ट्रपति, श्री एन. के. सिन्हा को कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग में 21 जनवरी, 2008 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक के लिए 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्ति करते हैं।

2. इस तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित रूप से बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए या ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. 38012/16/2007-स्थापना. I--कृषि एवं सहकारिता विभाग में अनुभाग अधिकारी, श्री डब्ल्यू सी. पुनिया अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 जनवरी, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

सं. 38012/17/2007-स्थापना. I--कृषि एवं सहकारिता विभाग में प्रधान निजी सचिव, श्री एस. पी. वर्मा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 जनवरी, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

सं. 38012/18/2007-स्थापना. I--कृषि एवं सहकारिता विभाग में निजी सचिव, श्री एम. एल. आहुजा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 जनवरी, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. 4-5/2004-विस्तार--राष्ट्रपति, डॉ. के. के. अरोड़ा, उप निदेशक (एस एण्ड आर) भारतीय अनाज भंडार प्रबन्धन और अनुसंधान संस्थान हापुड़ को विस्तार निदेशालय, कृषि और सहकारिता विभाग में 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में निदेशक (प्रशासन), जी. सी. एस. समूह 'क' राजपत्रित के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर 21 जनवरी, 2008 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

रानी तलरेजा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. ए-19012/11/2006-ईए--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर डॉ. अजीत कुमार नीओग, भारतीय आर्थिक सेवा के उच्च प्रशासनिक ग्रेड

के एक अधिकारी जो कृषि और सहकारिता विभाग में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार के पद पर नियुक्त थे, दिनांक 31.12.2007 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

के. संजयन, अवर सचिव

दिनांक 24 जनवरी 2007

सं. 12023/10/2000-स्था. II--सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कृषि एवं सहकारिता विभाग में अपर आयुक्त (बागवानी-फल), 14,300-400-18,300/- रुपए (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अल्पिक वर्गीय) के पद पर श्री शशि कुमार भट्टिया की प्रतिनियुक्ति की अवधि 01.12.2007 से एक वर्ष की अवधि के लिए 30.11.2008 (अपराह्न) तक या आगामी आदेशों तक, इसमें जो पहले हो, बढ़ाई जाती है।

के. संजयन, अवर सचिव

(पशुपालन, डेरी एवं मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2008

सं. 5-11/2006-प्रशा. -IV--राष्ट्रपति, श्री मोती लाल, दुग्ध वितरण अधिकारी, दिल्ली दुग्ध योजना, को प्रोन्नति पर पशुपालन, डेरी एवं मत्स्यपालन विभाग के अधीनस्थ कार्यालय दिल्ली दुग्ध योजना में 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 16.11.2007 (पूर्वाह्न) से उपप्रबंधक (वितरण) के पद पर स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करते हैं।

श्री मोती लाल दिनांक 16.11.2007 से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

एम. आर. शर्मा, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2008

सं. 5-1/2007-प्रशा. (भाग)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री डी. वी. के राव को दिनांक 18.01.2008 के अपराह्न से, अर्थात् अवर सचिव (ग्रेड-I) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अवर सचिव (ग्रेड-I) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5-20/2007-सी.एस. I (डेस्क) में वर्णित सम्बद्ध शर्तों के अधीन होगी।

शकुन्तला जैन, अवर सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. 3-9/2002-प्रशासन--राष्ट्रपति, सुश्री कुसुम मिश्र, आई.ई.एस. (96) को राष्ट्रीय महिला आयोग में दिनांक 01.11.2007 (पूर्वाह्न) से

अर्थात् कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार साल की अवधि के लिए उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

शकुन्तला जैन, अवर सचिव

### संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2008

सं. ए-19011/01/2008-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 जनवरी, 2008 के आदेश सं. 5/20/2007-सी.एस.1 (डेस्क) के जरिए श्री दिपांकर दत्ता की तदर्थ आधार पर ग्रेड-1 (अवर सचिव) में पदोन्नति तथा संस्कृति मंत्रालय में नियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री दिपांकर दत्ता ने दिनांक 28 जनवरी, 2008 पूर्वाह्न से इस मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

ए. मुरुगैयन, अवर सचिव

### संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

#### (दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 जनवरी 2008

सं. 400-52/2002-एसटीजी-III--भारतीय दूरसंचार सेवा समूह "क" के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी, श्री राजेश प्रधान (कर्मचारी सं. 2165) जो भारत संचार निगम लिमिटेड के उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र में महा प्रबन्धक के रूप में कार्यरत थे, का 29.11.2007 को देहान्त हो गया।

अमरजीत सिंह, अवर सचिव

#### (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 जनवरी 2008

सं. 3(3)/2006.का.1--राष्ट्रपति जी ने इस विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'ई' को दिनांक 21.1.2008 के पूर्वाह्न से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 16,400-450-20,000/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक 'एफ' नियुक्त किया है :--

1. श्री ए. एस. संधू (कर्मचारी कोड संख्या-121)
2. श्री दीपक चोपड़ा (कर्मचारी कोड संख्या-126)
3. श्री एस. सी. डे (कर्मचारी कोड संख्या-193)
4. श्री मुनी राम (कर्मचारी कोड संख्या-180)
5. श्री एस. शिवासुब्रमणियन (कर्मचारी कोड संख्या-192)

गिरीश सहाय, उप निदेशक

दिनांक 04 फरवरी 2008

सं. 2(8)/2007.का.1 (खण्ड II)--राष्ट्रपति जी ने श्री सानि अभिलाष जी.आई. (कर्मचारी कोड संख्या-958) को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में

दिनांक 04.02.2008 के पूर्वाह्न से 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी रूप से वैज्ञानिक 'बी' नियुक्त किया है।

2. उन्हें उपर्युक्त वेतनमान के न्यूनतम सोपान पर वेतन मिलेगा।

3. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

#### (डाक विभाग)

कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, म.प्र. डाक परिमंडल

भोपाल दिनांक 18 जनवरी 2008

विषय :- म.प्र. डाक परिमंडल में सहायक डाक अधीक्षक की पदोन्नति तथा पदस्थापना।

सं. स्टाफ 18-1/एसपी/08--मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, म.प्र. डाक परिमंडल भोपाल द्वारा निम्नलिखित डाकघर निरीक्षकों को रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में नियमित आधार पर सहायक डाक अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से तथा अगले आदेश तक जारी रहेगी।

2. सहायक डाक अधीक्षक संवर्ग में पदोन्नत अधिकारियों को निम्नलिखित क्षेत्र आवंटित किए जाते हैं :--

क्र. सं.	नाम	अ.जा./अ. ज.जा.	वर्तमान संभाग/ कार्यालय	आवंटित क्षेत्र
1	2	3	4	5
	श्री/श्रीमति			
1.	एम. कं. महेश्वरी		सीहोर	इंदौर
2.	एन. के. सेनी		सी.ओ. भोपाल	मुख्यालय
3.	एच. जी. नामदेव		शाहडोल	मुख्यालय
4.	एल. के. मिथनखेडावाल		इंदौर शहर संभाग	इंदौर
5.	पी. एन. शुक्ला		छतरपुर	मुख्यालय
6.	ए. के. जैन II		आर.एम.एस. जेबी संभाग	इंदौर (जबलपुर संभाग)
7.	वी. के. गौतम		रोवा	मुख्यालय
8.	एच. एस. पाण्डे		खण्डवा	इंदौर
9.	पी. के. बहुलकर		उज्जैन	इंदौर
10.	वी. के. जैन		सागर	मुख्यालय
11.	आर. कं. त्रिगुणी		छिंदवाडा	मुख्यालय
12.	ए. एन. मिश्रा		सेना डाक सेवा	सेना डाक सेवा
13.	के. आर. पटेल		आर.एम.एस. जेबी संभाग	इंदौर (जबलपुर संभाग)
14.	आर. एल. शर्मा		परिमंडल कार्यालय, भोपाल	मुख्यालय

1	2	3	4	5
15.	ए. आर. देशमुख		एस.पी.सी. भोपाल	मुख्यालय
16.	एच. पी. द्विवेदी		सेना डाक सेवा	सेना डाक सेवा
17.	आर. एस. चौहान		छतरपुर	मुख्यालय
18.	एस. एस. वर्मा		सेना डाक सेवा	सेना डाक सेवा
19.	ए. के. तिवारी		होशंगाबाद	इंदौर (जबलपुर संभाग)
20.	के. एस. तोमर	अ.जा.	सीहोर	इंदौर
21.	आर. पी. जायसवाल		होशंगाबाद	मुख्यालय
22.	के. के. शर्मा		आर.एम.एस. एमपी संभाग	मुख्यालय
23.	एस. के. दूबे		सेना डाक सेवा	सेना डाक सेवा
24.	पी. के. श्रीवास्तव		उज्जैन	इंदौर

## 2. सामान्य निर्देश :--

(i) पुनर्आबंटन हेतु प्राप्त किसी भी प्रकार के आवेदन पर आगामी एक वर्ष तक विचार नहीं किया जाएगा। एक वर्ष की अवधि में ली गई छुट्टियों की गणना नहीं की जाएगी।

(ii) संबंधित अधिकारियों का दायित्व है कि कार्यभार ग्रहण की रिपोर्ट की एक प्रति सहायक पोस्टमास्टर जनरल (अमला), परिमंडल कार्यालय भोपाल को भेजें।

(iii) वरिष्ठता अथवा अन्य किसी प्रकार की शिकायत या प्रतिवेदन इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के 15 दिन के अंदर भेजे जाने चाहिए।

(iv) इंदौर परिक्षेत्र के लिए आबंटित अधिकारियों के तैनाती आदेश सहायक निदेशक (अमला) इंदौर परिक्षेत्र द्वारा जारी किए जाएंगे।

(v) तैनाती आदेश जारी होने के 30 दिन के अंदर अधिकारियों को कार्यमुक्त किया जाए।

(vi) यदि कोई अधिकारी इस पदोन्नति हेतु अनिच्छुक है तो वह अपनी असहमति लिखित रूप में परिमंडल कार्यालय भोपाल को तैनाती आदेश जारी होने से 30 दिन के भीतर भेजे अन्यथा यह समझा जाएगा कि उन्होंने पदोन्नति अस्वीकार कर दी है।

## 3. सतर्कता/अनुशासनात्मक प्रकरण, यदि कोई हो :--

कर्मचारी के संबंध में कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक प्रकरण लंबित है तो पर इस कार्यालय के स्पष्ट आदेश के बिना उसे कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध दण्ड जारी है, तो उसे दण्डावधि समाप्त होने से पूर्व पदोन्नत न किया जाए। इस संबंध में एक रिपोर्ट तुरन्त भेजी जानी चाहिए।

## 4. वेतन निर्धारण का विकल्प :

यदि अधिकारी एफ.आर 22 (I) (a) (1) के तहत अपने वेतन तिथि का निर्धारण चाहता है, तो वह पदोन्नति से एक माह के भीतर इस संबंध में अपना विकल्प दे सकता है। ए.सी.पी. योजना के तहत जिन कर्मचारियों को दूसरी वित्तीय क्रमोन्नति मिल चुकी है वे ए.एस.पी संवर्ग में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण हेतु पात्र नहीं हैं।

जी. आर. धोटे, सहायक पोस्टमास्टर जनरल (अमला)

रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 05 फरवरी 2008

सं. ई.आर.बी.1/2007/2/66--श्री सुदेश कुमार, उ.प्र.ग्रे./भा.रे.बि.इंजी. से., सलाहकार (बिजली), रेलवे बोर्ड को 07.01.2008 के पूर्वाह्न से 24,050--26,000/- रु. के ग्रेड में अपर सदस्य (बिजली), रेलवे बोर्ड नियुक्त किया जाता है।

मैथ्यू जॉन, सचिव  
रेलवे बोर्ड

सं. ई.आर.बी.1/2006/2/28--श्री आर. डी. चौधरी, सेलेक्शन ग्रेड/भा.रे.क.से., निदेशक, वेतन आयोग, रेलवे बोर्ड को 28.01.2008 के पूर्वाह्न से 18,400--22,400/- रु. के ग्रेड में कार्यपालक निदेशक (ईआरपी), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

मैथ्यू जॉन, सचिव  
रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2008

सं. ए-19011/805/2001-स्था.-1--केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सीनियर सेलेक्शन ग्रेड के अधिकारी श्री पी. एस. राणा, निदेशक, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, निवर्तन की आयु पूरी होने पर दिनांक 31.1.2008 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पूर्णमा राजेन्द्रन, अवर सचिव

दिनांक 6 फरवरी 2008

सं. ए-38013/6/2007-ई-1--पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री सुरता राम अधिवर्धिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.01.2008 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

पूर्णमा राजेन्द्रन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2008

सं. ए-32014/1/2005-ई-II(बी)--कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.11.2007 के का. जा. सं. 5/18/2006-सी.एस. II के तहत, सीएसएसएस संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड-ए और बी (विलयित) की वर्ष 2004 की चयन सूची में निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड-सी के नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, सीएसएसएस संवर्ग के इन आशुलिपिकों जो इस समय पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर कार्यरत हैं, को इसी मंत्रालय में दिनांक 7.12.2007 से 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

1. श्रीमती कमलेश खट्टर
2. श्री कमल सिंह
3. श्रीमती अनिता सरोज

वीरेंद्र मोहन, अवर सचिव

#### विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 2008

सं. 04/2008 फा. सं. 2/5/07-प्रशा.दो--कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग के आदेश संख्या 4/4/2007-सी.एस. I दिनांक 10.01.2008 तथा 11.01.2008 की अनुपालना में, श्री किशन लाल जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में अवर सचिव हैं, को तदर्थ आधार पर, विद्युत मंत्रालय में रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में, उनके अवर सचिव के पद को निजी आधार पर पदोन्नत करते हुए, 1 फरवरी, 2008 के पूर्वान्त से, अगले आदेश तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयनित वर्ग (उप सचिव) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. श्री किशन लाल की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयनित वर्ग (उप सचिव) की तदर्थ पदोन्नति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपरोक्त आदेश दिनांक 10.01.2008 में निहित प्रावधानों से नियंत्रित होगी।

चन्दन मुखर्जी, अवर सचिव

सं. 05/2008 मिसिल सं. ए-32013/3/2005-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) के निम्नलिखित अधिकारियों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उसी सेवा के ज्येष्ठ काल वेतनमान (उप निदेशक/कार्यकारी अभियन्ता) में रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में, उनके अनुपलब्धता पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
	(सर्वश्री)	
1.	एच. के. पाण्डेय	15 दिसम्बर 2005 (पूर्वान्त)
2.	जयनाथ प्रसाद	14 नवम्बर 2005 (पूर्वान्त)
3.	के. बी. जगताप	14 नवम्बर 2005 (पूर्वान्त)

चन्दन मुखर्जी, अवर सचिव

सं. 05/2008 फा. सं. 2/7/2007-प्रशा.दो--राष्ट्रपति, श्री अजीत कुमार, जो वस्त्र मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी हैं, को 1 फरवरी, 2008 अपराह्न से, अगले आदेशों तक के लिए विद्युत मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्रेणी-I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं। उपरोक्त नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/20/2007-सी.एस. (डैस्क) (भाग) दिनांक 16 जनवरी, 2008 में निहित प्रावधानों से नियंत्रित होगी।

चन्दन मुखर्जी, अवर सचिव

सं. 6/2008 (फा. सं. 12/4/2007-प्रशा.दो)--श्री एल. डी. सेहरा, अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय, 31 जनवरी, 2008 के अपराह्न से, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए।

चन्दन मुखर्जी, अवर सचिव

दिनांक 5 फरवरी 2008

सं. 06/2008 फा. सं. ए-32013/1/2006-प्रशा.1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के श्री रविन्दर को उनके अनुपलब्धता पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उसी सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में रु. 18,400-500-22,400/- के वेतनमान में, दिनांक 22 जून 2006 (पूर्वान्त) से अगले आदेश तक के लिये नियुक्त करते हैं।

चन्दन मुखर्जी, अवर सचिव

#### जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर 2007

सं. 31/2007 फा. सं. 1/1/2005-प्रशा.--लोक एवं कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/1/2007-सी.एस.आई(डी) दिनांक 01 नवम्बर 2007 के तहत राष्ट्रपति, श्री एच. एच. चौधरी, सी.एस.एस. (सीएसएल नं. 3373) को जल संसाधन मंत्रालय में केन्द्रीय नियमित आधार पर उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

नरेश कुमार गुप्ता, अवर सचिव

सं. 32/2007 फा. सं. 1/1/2005-प्रशा.--लोक एवं कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/1/2007-सी.एस.आई(डी) दिनांक 07 नवम्बर 2007 के तहत राष्ट्रपति, श्री अनूप सेठ, सी.एस.एस. (सीएसएल नं. 3493) को जल संसाधन मंत्रालय में केन्द्रीय नियमित आधार पर उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

नरेश कुमार गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 2007

सं. 33/2007 फा. सं. 20/28/2003-प्रशा.I--लोक एवं कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/4/2007-सी.एस. दिनांक 26 नवम्बर 2007 के

तहत् राष्ट्रपति, श्री सोहन सिंह सैनी, अवर सचिव (सेलेक्ट लिस्ट 1997), को 12,000-375-16,500 रुपये के वेतनमान में जल संसाधन मंत्रालय में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर उप सचिव के रूप में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश होने तक के लिए नियुक्त करते हैं।

सतपाल, निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 25 जनवरी 2008

सं. 3/2008 फा. सं. 11/5/2007-प्रशा.--सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम, 2005 (2005 की सं. 22) की धारा 5(2) के अनुसरण में नियमानुसार जल संसाधन मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में निम्नलिखित अधिकारियों की उनके सम्मुख दिखाए गए स्कंधों के साथ केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम व पदनाम	स्कंध का नाम
	(श्री/सर्वश्री)	
1.	श्रीकान्ता पांडा, निदेशक	वित्त
2.	राजीव कुमार, निदेशक	भूजल

सतपाल, निदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2008

सं. 2/2008 फा. सं. 30/6/2007-स्थापना एक--केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह क) सेवा से त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप श्री विशाल दशरथ जर्जोडे सहायक निदेशक/सहायक कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग को 7.12.2007 (अपराह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है।

के.राजप्पा, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. 704/7/2007-बी (डी)--राष्ट्रपति, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा श्री आई. एस. महला, निदेशक (अभियांत्रिकी), आकाशवाणी का चयन किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, में निदेशक (ओ एंड एम) के रूप में तत्काल आमेलन आधार पर दिनांक 28.01.2008 (पूर्वाह्न) से 20,500-500-25,000 रुपये के वेतनमान में पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनके अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने की तारीख तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

गिरिश चंद, अवर सचिव

## LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 21st January 2008

No. PF. 23-R(3)/GN-6020/AN-I/2008.—On reversion from deputation to Government of Nagaland, Shri R. Kothandaraman has resumed duty in this Secretariat as Director in the scale of pay of Rs. 15,100-400-18,300/- with effect from the forenoon of 17th January, 2008.

ABHIJIT KUMAR, Director

## DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 094, the 31st December 2007

No. 6/1(1)2007-I.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space on Temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Date of appointment
Shri/Smt./Kum		
1.	Puneet Swaroop	25.05.2007
2.	Soniya Nibhani	08.10.2007
3.	Satish K. Tripathi	31.08.2007

K.S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 6/1(1)2007-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Officers to the posts mentioned against each in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post to which Promoted	Date of Promotion
Shri/Smt./Kum			
1.	K. M. Sasidharan	Head P & GA	15.06.2007
2.	G. Surianarayanan	Sr. Purchase and Stores Officer	03.07.2007
3.	B. Subrahmanyeswara Rao	Sr. Head Purchase and Stores	26.07.2007
4.	R. M. Pargi	Purchase and Stores Officer	18.09.2007
5.	K. Bhanuvikraman Nair	Administrative Officer	18.09.2007

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 6/1(1)2007-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Space Application

Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating with effect from the forenoon of 01.07.2007 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which Promoted	Post to which Promoted
Shri/Smt./Kum			
1.	Sandeep I. Patel	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SF
2.	V. S. Jagadesh	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SF
3.	M. Punna Rao	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SF
4.	B. D. Lad	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SF
5.	Shalini Ujjwal Gangele	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
6.	Monika Gupta	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
7.	Rakesh H. Shah	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
8.	M. R. Patel	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
9.	V. B. Savaliya	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
10.	Dhatri H. Trivedi	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
11.	P. V. Nagamani	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
12.	S. S. Srivastava	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
13.	U. S. Yadhunagar	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
14.	S. G. Nagar	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
15.	Vipin Jain	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
16.	DNVSSN Murthy	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
17.	Sandip Ghorai	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
18.	Dhaval Avinash Vartak	Scientist/Engineer-SB	Scientist/Engineer-SC
19.	Rajesh K. Nagrani	Scientist/Engineer-SB	Scientist/Engineer-SC

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 6/1(1)2007-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2007 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which Promoted	Post to which Promoted
1	2	3	4
Shri/Smt./Kum			
1.	P. L. Kuikarni	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-II
2.	E. P. Balsubramanyam	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
3.	Tapan Misra	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
4.	Arundhati Misra	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
5.	Dr. Markand P. Oza	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
6.	Dr. Beena Kumari S	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
7.	P. Narayanababu	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
8.	T. V. S. Ram	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
9.	N. V. Shah	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
10.	Brijesh Kumar	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG

1	2	3	4
	Shri/Smt./Kum.		
11.	V. A. Ghai	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
12.	B. M. Darji	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
13.	S. G. Vaishnav	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
14.	M. C. Koladiya	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
15.	S. Manthira Moorthi	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
16.	Mina Roy	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
17.	H. B. Pandya	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
18.	Jignesh Bhatt	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 6/1(1)2007-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2007 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which Promoted	Post to which Promoted
	Shri/Smt./Kum.		
1.	J. L. Mehta	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
2.	R. R. Bhavsar	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
3.	Bala Satyanarayana	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
4.	Barkha Gupta	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
5.	Anita Panday	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
6.	Jolly Dhar	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
7.	Sanjeev Mehta	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
8.	Arti Sarkar	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
9.	C. N. Lal	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
10.	Raghunath Gouda	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
11.	K. M. Parmar	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
12.	A. K. Gajjar	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
13.	J. B. Rami	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
14.	Dipti R. Patel	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
15.	Neeta V. Sheth	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
16.	Jayaprasad. P	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
17.	R. P. Prajapati	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
18.	N. K. Sola	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 6/1(2)/2007-I.—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Scientists/Engineers in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the date mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Post	Date of relief
	Shri/Smt/Kum		
1.	V. Muralidhar	Scientist/Engineer-H	31.07.2007
2.	C. M. Nagrani	Scientist/Engineer-G	31.08.2007
3.	S. V. Mehta	Scientist/Engineer-SG	31.08.2007
4.	C. P. Shah	Scientist/Engineer-SG	31.08.2007
5.	D.D. Halbe	Scientist/Engineer-SG	31.07.2007
6.	N. K. Panchal	Scientist/Engineer-SG	30.09.2007
7.	V. A. Ghai	Scientist/Engineer-SG	30.09.2007
8.	Dr. Chitta Ranjan Maiti	Scientist/Engineer-SG	30.09.2007
9.	Dr. S. M. Bhandari	Scientist/Engineer-SG	31.07.2007
10.	M. K. Agarwal	Scientist/Engineer-SG	31.07.2007
11.	K. V. R. Prabhakara Rao	Scientist/Engineer-SF	30.09.2007
12.	C. G. Kulkarni	Scientist/Engineer-SF	31.07.2007
13.	P. V. Antoo	Scientist/Engineer-SF	30.06.2007

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 6/1(2)/2007-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of the following Scientists/Engineers in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Designation	Date of Resignation
	Shri/Smt/Kum		
1.	Soumendra Mukhopadhyay	Scientist/Engineer-SC	02.07.2007
2.	Kundu Saikat. D	Scientist/Engineer-SC	24.07.2007
3.	Mukesh Gupta	Scientist/Engineer-SC	30.07.2007
4.	Ajit Aranha	Scientist/Engineer-SD	14.08.2007

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 9/1(1)/2007-I.—In Partial modification of this Department's notification of even number dated 12.11.2007, the designation in respect of Shri Parameswaran. S, INSAT-Master Control Facility, Hassan Mentioned at Sl. No. 1 may please be read as Scientist/Engineer-G instead of Scientist/Engineer-SG.

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

## PLANNING COMMISSION

New Delhi-110 001, the 26th December 2007

No. A. 19016/267/2005-Adm. III.—In continuation of Planning Commission's Notification of even number dated 25.07.2007 and in pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/5/2007-CS. II dated 20.12.2007, the President is pleased to extend the period of ad-hoc promotion of Ms. Janki Venkateshwaran, Principal Private Secretary of C.S.S.S. Cadre as Sr. Principal Private Secretary in Planning Commission on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 12,000—16,500/- upto 30.06.2008 or till regular Sr. PPS becomes available or until further orders, whichever is earlier.

The appointment of Ms. Janki Venkateshwaran to the post of Sr. Principal Private Secretary is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on her to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade of Sr. Principal Private Secretary of CSSS.

ANIL MALHOTRA, Dy. Secy.

The 18th January 2008

No. A-20011/2/90-Adm. V.—In pursuance of Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, P.G. and Pensions Order No. 5/20/2007-CS. I (Desk) dated 16th January, 2008 the services of Shri D.V.K. Rao, Section Officer, Planning Commission are placed at the disposal of the M/o Women and Child Development with effect from the forenoon of 18th January, 2008 for appointment as Under Secretary (Grade I of CSS) on ad hoc basis.

ANIL MALHOTRA, Dy. Secy.

New Delhi, the 18th January 2008

No. A-12025/8/2007-Admn. II.—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar Bhatheja, a regular Research Assistant (Statistics.) of the Planning Commission to the post of Economic Officer (Project Appraisal) [Group 'B' Gazetted] in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, in the Planning Commission on Deputation basis w.e.f. 18.01.2008 (FN) for a period upto 12.07.2010 or till the regular incumbent repatriates to his substantive post, whichever is earlier.

N. K. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 5th February 2008

No. A. 43011/04/2008-Adm. I.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/20/2007-CS. I (Desk) dated 16th January, 2008, Shri Subhash Chander, an officer of Central Secretariat Service (CSL No. 6040) and regular Section Officer, Department of Expenditure has assumed charge as Under Secretary (ad-hoc) in the Planning Commission in the

scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. the forenoon of 29th January, 2008.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

## SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110 001, the 1st February 2008

No. 193/22/14/2007 (AKM)/1530.—On attaining the age of superannuation, Shri A. K. Majumdar, Principal Secretary in the Election Commission of India, retired from service w.e.f. the afternoon of 31.01.2008.

STANDHOPE YUHLUNG, Secy.

No. 193/22/14/2007 (SS)/1578.—On attaining the age of superannuation, Smt. Shakuntla Sahi, Assistant Director (Official Language) in the Election Commission of India, retired from service w.e.f. the afternoon of 31.01.2008.

STANDHOPE YUHLUNG, Secy.

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

## (DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 7th September 2006

No. A-31015/2/2001-Admn. I (LA).—In pursuance of the instructions contained in the Department of Personnel and Training's O.M. No. 18011/1/86-Estt.(D) dated 28.3.1988 and as per orders of the Competent Authority, Shri A. K. Sharma, Assistant Government Counsel is appointed substantively to the post of Assistant Government Advocate (General Central Service, Group 'A') in the Department of Legal Affairs of the said Ministry with effect from 15.10.1993.

KIRAN PURI, Dy. Secy.

New Delhi, the 30th January 2008

No. A-32015/3/2006-Admn. IV (LA).—In continuation of this Department's Notification of even number dated 18th July 2007 and in pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/8/2006-CS-II dated 8.1.2008, the President is pleased to extend appointment of the following Grade 'C' Stenographers of CSSS cadre as Private Secretary on ad-hoc basis in the scale of Rs. 6,500—10,500/- in the CSSS cadre of Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs for a



further period of six months upto 30.06.2008 or till regular Stenos Grade 'A&B' (Merged) of CSSS become available or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	Present place of posting
	S/Shri	
1.	Smt. Nawaljit K. Ghai	LA (on loan to M/o Petroleum & Natural Gas)
2.	V. S. Rathore	ID
3.	T. S. Pandian	LA, Br. Sectt., Chennai
4.	Virender Kr. Jatav	ID
5.	Ms. Rajlakshmi Sridhar	LA, Br. Sectt., Mumbai
6.	Prodip Mukherjee	LA, Br. Sectt., Kolkata
7.	N. K. Grover	LA, CAS
8.	Om Prakash Sharma	LA
9.	Ms. Binla Verma	LA
10.	V. R. D. Namboodiripad	ID
11.	R. V. S. Bhanuprasad	ID
12.	Ms. Neelam Khatri	LA
13.	Mohd. Hussain	LD, on deputation as Confid. Supdt.
14.	S. K. Chattaraj	LA, Br. Sectt., Kolkata
15.	Ms. P. K. Sathy Devi	LA
16.	Satish Chandra	LA, LC
17.	Ms. Manju Bala Mehta	LA, LC
18.	S. C. Aggarwal	LA, LC
19.	Ms. Shashi Gupta	LA
20.	Ms. Indu Chopra	LA, LC
21.	A. K. Sood	LA, LC
22.	R. K. Vaid	ID
23.	Mahesh Kumar (SC)	LA
24.	Surender Singh (SC)	ID
25.	Ms. S. K. Dhawan	ID
26.	R. S. Shukla	LA, ATFE
27.	Bhawani Prasad	ID
28.	Ms. Shikha Khurana	LA
29.	Ranjit Singh	ID
30.	R. Karunakaran	LA
31.	Rajinder Kumar (SC)	ID
32.	Ms. Anita (SC)	LA
33.	Netra Pal Singh (SC)	LA, CAS

2. The above said promotion is made purely on ad-hoc basis and will not confer any right on them to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) (PS) for the above said period.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 31st January 2008

No. A-32013/6/2007-Ad. I.—The President is pleased to appoint the following Section Officers of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I (Under Secretary) in the Ministry of Home Affairs in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- purely on ad-hoc basis with effect from the date mentioned against their names, until further orders :—

1. Sh. Ram Rattan	21.01.2008 (FN)
2. Sh. T. Narasimhan	21.01.2008 (FN)
3. Sh. K. Natarajan	21.01.2008 (FN)
4. Sh. Subhash Chander Sharma	23.01.2008 (AN)

2. The ad-hoc promotion is subject to the following conditions :—

- The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.
- Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- The aforesaid appointment shall further be subject to the order, dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

J. B. SHARMA, Under Secy.

The 5th February 2008

No. 20/G/2851-Ad. I.—The President is pleased to appoint Shri Kamlesh Chander Jain, CSS (1976), as Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 5th February, 2008.

J. B. SHARMA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 1st February 2008

No. 14040/29/2006-UTS-II.—In partial modification of this Ministry's Notification No. 14016/17/2006-UTS-II dated 2.3.2007; the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs, under Clause (c) of Sub-rule (2) of Rule 7 read with Sub-rule (1) of Rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, has appointed Shri Gurmeet Singh, the then Inspector of Delhi Police and presently Entry Grade officer of DANIPS in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on probation for a period of two years with effect from the date on which his junior was given promotion as per details given below :—

Name of the officer	Range No.	Date of Birth	Date of Promotion
Sh. Gurmeet Singh	D-I/605	20.1.1957	30.10.2006

J. K. SINGH, Desk Officer

New Delhi-110001, the 13th February 2008

No. I-18011/1/2008-IPS. IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Nishith Mishra, IPS (Maharashtra : 2004), in the Indian Police Service with effect from the 6th September, 2006.

RAJINDER KUMAR, Section Officer

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi-110003, the 31st January 2008

No. 13011/5/2007-O.L. (P&C)—The President is pleased to appoint Shri Nand Kishore Chawla, Assistant Director (Adhoc), Smt. Usha Rani Agarwal, Translation & Training Officer and Shri Chainpal Singh, Translation & Training Officer, Central Translation Bureau, a subordinate office of the Department of Official Language, as Assistant Director on regular basis in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on promotion w.e.f. the forenoon of 16th January, 2008.

S. S. KEMWAL, Dy. Secy. (Policy)

INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 4th February 2008

No. A-19011/1/2008-ISC—The President is pleased to appoint Shri Randhir Singh, as Deputy Secretary in the Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 29th January, 2008 until further orders.

B. B. GUPTA, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL CIVIL DEFENCE

New Delhi-110066, the 11th September 2007

No. A-11015/2/2005-DGCD (Estt.).—The President is pleased to appoint Sh. C. S. Sundhan, APO, SSB in the Directorate General Civil Defence, Ministry of Home Affairs as Senior Staff Officer (P&C) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on deputation for a period of three years with effect from 11th September, 2007 (forenoon).

K. KOSHY, IPS, Director Genl.  
National Disaster Response Force &  
Civil Defence

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 30th January 2008

No. A-32013/2/2008-Ad. I. (G).—Consequent upon his transfer from Ministry of Home Affairs, the President is pleased to appoint Sh. K. K. Bajaj, a Grade-I Officer of CSS, as Under

Secretary in Department of Personnel and Training with effect from the afternoon of 21st January, 2008, until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy

No. A-32013/2/2008-AD.I. (G).—The President is pleased to appoint Shri S. S. Shukla, a permanent Section Officer of CSS cadre of Department of Commerce to Grade-I of CSS (Under Secretary) in Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions purely on ad hoc basis in the scale of Pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 21st January, 2008, until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A-32013/2/2008-Ad.I.(G).—The President is pleased to appoint Shri R. D. Talukdar, a permanent Section Officer of CSS cadre of Ministry of Information & Broadcasting to Grade-I of CSS (Under Secretary) in Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions purely on ad hoc basis in the scale of Pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the afternoon of 21st January, 2008, until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

New Delhi-110067, the 31st January 2008

No. 13019/12/2007-ACADEMY (DESK).—The President is pleased to appoint Shri Aakash Deep Chakravarti, IpoS(94) as Deputy Director (Deputy Secretary level) in Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- for a period of four years w.e.f. 18.5.2007 (forenoon) or until further orders, whichever event takes place earlier.

CHANAN RAM, Under Secy.

New Delhi, the 1st February 2008

No. 14012/02/2006-AIS-III.--In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Bihar, with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name of the officers	Batch	Date of Confirmation
1.	Shri Lokesh Kumar Singh	2003	1.9.2005
2.	Ms. Bardana Preyashi	2003	1.9.2005
3.	Shri Anupam Kumar	2003	1.9.2005
4.	Shri Asangba Chuba AO	2003	1.9.2005

G. C. PANDEY, Under Secy.

New Delhi, the 5th February 2008

No. 14015/02/2007-AIS(I)-A.—In terms of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2007 on 01.02.2008 containing the name(s) of the following member(s) of the State Civil Service of the State of AGMUT (Goa) prepared by the Selection Committee in its meeting held on 17.12.2007 towards filling up 1 (one) existing vacancies in the AGMUT (Goa) cadre of the Indian Administrative Service, during 2007 :—

## SELECT LIST 2007

Name of the Officer	Date of Birth
Shri Cholleti Prabhakar	09.06.1956

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/02/2007-AIS(I)-B.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following member(s) of the State Civil Service of AGMUT (Goa) to the Indian Administrative Service against the vacancies for the year 2007 on probation with immediate effect until further orders and to allocate him to the AGMUT (Goa) Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Name of the Officer
Shri Cholleti Prabhakar

S. S. SHUKLA, Under Secy.

The 6th February 2008

No. 14015/21/2007-AIS(I)-A.—In terms of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2005, 2006 and 2007 on 23rd January, 2008 containing the names of the following members of the State Civil Service of the Tamil Nadu Cadre prepared by the Selection Committee in its meeting held on 14th December, 2007, towards filling up 04, 06 and 05 vacancies respectively in the Indian Administrative Service, Tamil Nadu Cadre :—

S. No., Name of the Officer &amp; Date of Birth

## SELECT LIST 2005

- 1\*. Shri T. K. Ponnusamy, 05.06.1953
- 2#. Shri Jawahar Santhakumar, 14.11.1953
3. Shri M Rajendran, 17.05.1957
4. Shri Mahesan Kasirajan, 25.09.1962

\*The name at S. No. 1 has been included in the Select List provisionally subject to clearance in the criminal proceedings pending against him and subject to grant of Integrity Certificate by the State Government.

#The name at S. No. 2 has been included in the Select List provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against him and subject to grant of Integrity Certificate by the State Government.

## SELECT LIST 2006

- 0A \*@ Shri T. K. Ponnusamy, 05.06.1953
- 0B #@. Shri Jawahar Santhakumar, 14.11.1953
1. Shri T. Soundaiah, 11.05.1955
2. Shri V. Palanikumar, 10.03.1959
3. Shri M. Jayaraman, 24.10.1955
4. Shri V. K. Shanmugam, 08.09.1955
5. Shri R. Sudalaikannan, 19.05.1960
6. Shri U. Sagayam, 03.07.1962

\*The name at S. No. 1 has been included in the Select List provisionally subject to clearance in the criminal proceedings pending against him and subject to grant of Integrity Certificate by the State Government.

#The name at S. No. 2 has been included in the Select List provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against him and subject to grant of Integrity Certificate by the State Government.

@The name at S. Nos. 1 and 2 have been included in addition to the size of the Select List as per 2nd proviso to Regulation 5(5) of the IAS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

## SELECT LIST 2007

- 0 \*@ Shri T. K. Ponnusamy, 05.06.1953
1. Smt. Mythili K. Rajendran (S.C.), 06.06.1964
2. Shri M. S. Shanmugam, 23.06.1966
3. Smt. Reeta Harish Thakkar, 28.06.1966
4. Smt. B. Jothi Nirmala, 30.05.1964
5. Smt. Jayashree Muralidharan, 24.01.1967

\*The name at S. No. 0 has been included in the Select List provisionally subject to clearance in the criminal

proceedings pending against him and subject to grant of Integrity Certificate by the State Government.

@The name at S. No. 0 has been included in addition to the size of the Select List as per 2nd proviso to Regulation 5(5) of the IAS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/21/2007-AIS(I)-B.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Tamil Nadu to the Indian Administrative Service against the vacancies for the year 2005–2007 on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Tamil Nadu Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Sl. No., Name of the Officer

#### APPOINTMENTS FROM SELECT LIST 2005

1. Shri M. Rajendran
2. Shri Mahesan Kasirajan

#### APPOINTMENTS FROM SELECT LIST 2006

1. Shri T. Soundaiah
2. Shri V. Palanikumar
3. Shri M. Jayaraman
4. Shri V. K. Shanmugam
5. Shri R. Sudalaikannan
6. Shri U. Sagayam

#### APPOINTMENTS FROM SELECT LIST 2007

1. Smt. Mythili K. Rajendran (S.C.)
2. Shri M. S. Shanmugam
3. Smt. Recta Harish Thakkar
4. Smt. B. Jothi Nirmala
5. Smt. Jayashree Muralidharan

S. S. SHUKLA, Under Secy.

#### MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 12th December 2007

No. 23/PA-II/2007.—The President is pleased to appoint the following officers of Grade-I of IFS(B) to the Senior Scale of Indian Foreign Service with effect from the date mentioned against their names :—

S. No., Name of the Officer & Date of Promotion to the Senior Scale of IFS

S/Shri

1. K. N. Mohanakumaran, 2nd November 2007
2. Madhukar Asnani, 2nd November 2007
3. Jitender K. Sharma, 2nd November 2007
4. J. S. Variaali, 2nd November 2007
5. Rakesh Kumar, 2nd November 2007
6. R. S. Badwal, 2nd November 2007
7. V. K. V. Raman, 2nd November 2007
8. F. Xavier Xaxa, 2nd November 2007
9. Ashutosh K. Agrawal, 2nd November 2007

2. The above mentioned officers will be on probation for a period of two years from the date of their promotion to Senior Scale.

3. The above appointments will be subject to any Court decision, which may have a bearing on these promotions.

ACQUINO VIMAL, Under Secy.

The 31st December 2007

No. 25/PA-II/2007.—On attaining the age of superannuation, Shri Kishan Swarup, First Secretary in the Embassy of India, Bucharest, retired from the Junior Administrative Grade of the Indian Foreign Service, on the afternoon of 31st December, 2007.

ACQUINO VIMAL, Under Secy. (FSP)

New Delhi, the 1st February 2008

No. Q/PA-I/20/2008.—On attaining the age of superannuation, Shri P. S. Ray, Ambassador of India, Copenhagen, retired from Grade I of the Indian Foreign Service, on the afternoon of January 31st, 2008.

R. GAURAV SHRESTH, Under Secy. (FSP)

No. 4/PA-II/2008.—On attaining the age of superannuation, Shri G. L. Bali, First Secretary in the Embassy of India, Yerevan, retired from the Junior Administrative Grade of the Indian Foreign Service, on the afternoon of 31st January, 2008.

R. GAURAV SHRESTH, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-I/21/2008.—On attaining the age of superannuation, Smt. Navrekha Sharma, Ambassador of

India, Jakarta, retired from Grade I of the Indian Foreign Service, on the afternoon of January 31st, 2008.

R. GAURAV SHRESTH, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-I/22/2008.—On attaining the age of superannuation, Shri O. P. Bhola, retired from Grade IV of the Indian Foreign Service, on the afternoon of January 31st, 2008.

R. GAURAV SHRESTH, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-I/23/2008.—Following superannuation of Shri P. S. Ray, an officer of Grade-I of the IFS and Ambassador of India, Copenhagen, on 31st January, 2008 (AN), the President is pleased to re-employ Shri P. S. Ray, as Ambassador of India, Copenhagen, in Grade-I of the IFS with effect from 01.02.2008 for a period of one month, i.e. upto 29.02.2008.

R. GAURAV SHRESTH, Under Secy. (FSP)

The 4th February 2008

No. Q/PA-I/24/2008.—The President is pleased to appoint the following officer presently in Grade-III of the Indian foreign Service (IFS) to officiate in Grade-II of the Service with effect from the forenoon of February 01, 2008.

Name of the Officer	Present Grade	Grade After Promotion
1. Ms. Sarita Bali	Grade-III of IFS	Grade-II of IFS

2. On promotion to grade-II of IFS, the officers relinquished charge of the post in Grade-III of IFS on the forenoon of 01.02.2008 and assumed charge of the post in Grade-II of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

R. GAURAV SHRESTH, Under Secy. (FSP)

No. Q/PA-I/25/2008.—The President is pleased to appoint the following officer presently in Grade-III of the Indian foreign Service (IFS) to officiate in Grade-II of the Service with effect from the forenoon of February 01, 2008.

Name of the Officer	Present Grade	Grade After Promotion
Sh. Manbir Singh	Grade-III of IFS	Grade-II of IFS

2. On promotion to grade-II of IFS, the officers relinquished charge of the post in Grade-III of IFS on the forenoon of 01.02.2008 and assumed charge of the post in Grade-II of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

R. GAURAV SHRESTH, Under Secy. (FSP)

## OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 4th February 2008

No.D-III/460/CF-11/2007.—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Rathindra Nath Datta as Honorary Consul of the Republic of Hungary in Kolkata with immediate effect.

The Consular jurisdiction of Mr. Rathindra Nath Datta comprises the States of West Bengal Bihar, Orissa, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Nagaland.

D. K. SHARMA  
Dy. Chief of Protocol (F)

## MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

New Delhi, the 5th February 2008

No. 01/2008. F. No. A.-12022/1/2006-(PA).—The President is pleased to appoint Shri K. Mohandas, IAS (KL : 74), as Secretary, Ministry of Overseas Indian Affairs with effect from 04.02.2008 (FN).

V. K. BHATIA, Under Secy.

## MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 7th January 2008

No. 03: (F. No. A.-38013/11/2007-Ad. I)—Shri S. K. Ghose, an officer of the Central Secretariat Service posted as Section Officer in the Department of Revenue retired from Government Service on 31st December 2007 (AN) on attaining the age of superannuation.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

The 9th January 2008

No. 04 : (F. No. A.-19011/2/2008-Ad. I)—The President of India is pleased to appoint Shri Ashutosh Dikshit, IRS (IT : 87), as Joint Secretary (TPL-II) in the Department of Revenue for a period of 5 years with effect from 19.12.2007 (AN) or until further orders, whichever is earlier.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

No. 05 : (F. No. A.-19011/1/2008-Ad. I)—The President of India is pleased to appoint Shri K. K. Jha, IRS (C & CE : 78) as Joint Secretary (Review) in the Department of Revenue for a period of five years with effect from 03.01.2008 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

The 10th January 2008

No. A.-12026/10/2006-Ad. I—With the approval of the competent authority it has been decided that in the absence

of the incumbent to the post of Joint Secretary (Revision Application), Smt. Rasheeda Hussain, Joint Secretary (COFEPOSA) shall act as link officer, with immediate effect and until further orders.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

New Delhi, the 17th January 2008

No. 06 : (F. No. A.-12026/9/2005-Ad. I)—The President of India is pleased to appoint Shri Unmesh Wagh, IRS (C & CE) as Under Secretary in the Central Board of Excise & Customs for a period of three years w.e.f. 21.11.2007 (FN) and until further orders.

S. K. TYAGI, Dir. (H Qr.)

No. 07 : (F. No. A.-12026/9/2005-Ad. I)—The President of India is pleased to appoint Shri Nitin Saini, IRS (C & CE) as Technical Officer in the Central Board of Excise & Customs w.e.f. 20.11.2007 (FN) and until further orders.

S. K. TYAGI, Dir. (H Qr.)

The 23rd January 2008

No. 8 : (F. No. A.-19012/1/2005-Ad. I)—In continuation of this Department's Notification No. 6 dated 11.1.2005, the president of India is pleased to appoint Shri J. P. Chandrakar, IRS (IT : 93) Deputy Secretary as Director in the Department of Revenue w.e.f. 01.07.2007 (FN), for the balance period of his five years tenure i.e. upto 04.10.2010 or until further orders, whichever is earlier.

S. K. TYAGI, Dir. (H Qr.)

#### INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENTS

New Delhi, the 29th January 2008

No. 06 of 2008 (F. No. A.-38012/08/2008-Ad. II)—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement of Shri K. S. Nair, Chief Commissioner of Central Excise, Bangalore, from the Government Service with effect from 30.01.2008 (FN), under Rule 48 of CCS (Pension) rules, 1972.

ALOK AGARWAL, Under Secy.

#### INDIAN REVENUE SERVICE (CUSTOMS & CENTRAL EXCISE)

##### ESTABLISHMENTS

The 31st January 2008

No. 07 of 2008 (F. No. A.-38012/33/2007-Ad. II)—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement of Shri Mir Hyder Ali, Assistant Commissioner, Commissionerate of Customs (Prev.) IIqrs, Lucknow with effect from 01.02.2008 (AN).

ALOK AGARWAL, Under Secy.

#### (DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 30th January 2008

No. A.-11011/7/2003-Ad.-IA.—In continuation of this Department's Notification No. A. 11011/7/2003-Ad.-IA dated 17th July, 2007, the term of adhoc deputation of Shri P. R. Devi Prasad, NFSG (IES : 82) as Officer on Special Duty (FRBM) in the pay scale of Rs. 14,300-450-22,400/- is further extended for a period w.e.f. 19.01.2008 to 31.03.2008 in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs.

This issues with the concurrence of the Department of Personnel and Training Estt. (D) vide DOPT Dy. No. 3399/CF/07 dated 16th July 2007.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

No. A. 12011/01/2006-Admn. II.—In continuation of this Department's notification No. A. 12011/01/2006-Admn. II dated 09.08.2007, the President is pleased to extend the appointment of the following Principal Private Secretaries of CSSS of Finance Cadre in the same capacity in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs purely on ad-hoc basis for a further period of six months with effect from 01.01.2008 to 30.06.2008 or till regular Officers becomes available, whichever is earlier :—

(i) Shri M. S. Sharma

(ii) Shri R. Pradeep Kumar

2. The ad-hoc promotion of the above officers shall not confer on them any claim for regular appointment or the right to continue indefinitely in the grade of Principal Private Secretary of CSSS. The service rendered by the above officers on ad-hoc basis will not count for the purpose of seniority in the grade or for eligibility for promotion to the next higher grade and they will be reverted as and when Select List persons become available.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 23rd January 2008

No. A.-19019/7-132-2007-Ad. IA.—The President is pleased to appoint Smt. Shashi Ahuja, Sr. Hindi Translator working in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance to the post of Assistant Director (OL), Group "B" Gazetted in the pay scale of Rs. 7500-250-12000/- on adhoc promotion basis for a period of 6 months w.e.f. 14th December, 2007 (FN) or until an incumbent is appointed on regular basis, whichever is earlier.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 4th February 2008

No. A. 12011/7-2006-Ad. IA.—In continuation of this Deptt.'s notification of even number dated 17th November, 2006, the President is pleased to extend the ad-hoc appointment

of Shri Tapan Kumar Manna, Manager, Govt. of India Press, Santragachi as Manager (Press) in the Budget Press of this Department for a further period of one year w.e.f. 16.11.2007 in the scale of Rs. 10,000—15,200/- or till the post is filled up on regular basis whichever is earlier.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)

New Delhi, the 24th January 2008

No. A-15012/2/2006-DRT.—In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 4 read with Section 6 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, (51 of 1993), the Central Government has appointed Shri Debi Prasad Misra, as Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal, Ranchi, for a period of five years with effect from 1st January, 2008 (F.N.) or till he attains the age of 62 years, or until further orders, whichever is the earliest.

A. THOMAS, Under Secy.

New Delhi, the 30th January 2008

No. A-12034/4/2004-Estt.—The President is pleased to continue the ad-hoc appointment of Shri Rajiv Kumar, a regular Research Officer in the Department of Financial Services, Ministry of Finance in the post of Senior Research Officer (Grade-A) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- for a further period of six months w.e.f. 1.2.2008 or till repatriation of the regular incumbent of the post from deputation or until further orders, whichever is the earliest.

2. The Ad-hoc appointment shall not confer on Shri Rajiv Kumar any right to continue in the grade indefinitely or for regular appointment or to claim seniority in the Grade of Senior Research Officer.

AMRIK SINGH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 6th February 2008

No. A. 32013/1/2006-Ad. II.—The President is pleased to extend the ad-hoc promotion of the following Assistant Deputy Directors in the Staff Inspection Unit of this Department as Deputy Directors in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- for a further period of one more year w.e.f. 19.1.2008 to 18.1.2009 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier :

S/Shri

1. B. L. Sharma
2. Ravinder Kumar

2. The extension of ad-hoc promotion of the above mentioned officers will not bestow on them any claim for

regular promotion and the services rendered by them on ad-hoc basis in the grade will not count for promotion in the next higher grade.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

New Delhi-110 003, the 29th January 2008

No. A-32013/8/2007/Gr. A/Ind/101-110.—Further to this office notification No. A-32013/8/2007/Gr. A/Ind/3744-58 dated 1.1.2008, the President is pleased to appoint, on probation, Shri Jagat Singh, Sr. Accounts Officers (Group 'B') to the Junior Time Scale of ICAS (Group 'A') in the pay scale of Rs. 8000-275-13,500/-, in terms of the Indian Civil Accounts Service (Group 'A') Recruitment rules with effect from the date of his taking over of the charge of the posts in the JTS.

The period of probation shall be two years from the date of his taking over of the charge of the posts in the JTS.

SANJEEV MISHRA, Jt. Controller General of Accounts

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 27th September 2007

No. A-32011/7/2006-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 7/16/2007-CS. I(S) dated 18th September, 2007, the President is pleased to appoint Shri Anil Kumar Jain, Assistant (SL-1993/Genl.) of the Central Secretariat (CSS) borne on the cadre of Ministry of Petroleum & Natural Gas as Section Officer in this Ministry on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 27.09.2007 for a period up to 31.12.2007 or till the regular Section Officers are made available or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri Anil Kumar Jain to the post of Section Officer is purely ad-hoc in nature and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim Seniority in the post of Section Officers grade of CSS.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

The 1st November 2007

No. A-32011/1/2004-Estt. (Pt.).—In terms of the Department of Personnel & Training's Order No. 4/4/2007-CS. 1 dated 31.10.2007, the President is pleased to appoint Shri Shri Prakash, a Grade. I Officer (Under Secretary) in the Ministry of Petroleum and Natural Gas as Deputy Secretary on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- w.e.f. the afternoon of 31.10.2007.

2. The above appointment is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade of CSS.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

The 21st January 2008

No. A-20011/29/2007-Estt.—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation's Order No. 12015/5/2006-SSS, dated 15.11.2007, the President is pleased to appoint Shri S. S. Chahal, as Statistical Investigator Grade-II in the Ministry of Petroleum & Natural Gas in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. the forenoon of 24th December, 2007.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

The 24th January 2008

No. A-12011/11/2006-Estt.—In terms of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/8/2006-CS. II dated 8th January, 2008, the President is pleased to extend the ad-hoc appointment of following Stenographer Grade 'C' of CSSS borne on the Cadre of Ministry of Petroleum & Natural Gas as Private Secretary (A&B merged) in the pay scale of Rs. 6,500—10,500/- for a further period of six months upto 30.06.2008 or till regular Stenos Grade 'A&B' (merged) of CSSS become available or until further orders, whichever is earlier :—

1. Shri Suresh Chander
2. Shri P.L.S. Maniktala
3. Shri S. K. Thakur
4. Shri J. K. Tandon
5. Smt. Sohini Nigam
6. Shri Bhoj Singh

2. The above appointments are purely on ad-hoc basis and will not bestow on the above mentioned persons any claim for regular appointment etc.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

---

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS  
(DEPARTMENT OF CHEMICALS & PETROCHEMICALS)

New Delhi-110 001, the 22nd January 2008

No. A-19011/10/2000-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Prabh Sharan Singh, a regular Under Secretary of Central Secretariat Service as Deputy Secretary on ad-hoc basis in the Department of Chemicals & Petrochemicals in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from the forenoon of 18th January, 2008.

2. The aforesaid ad-hoc appointment is subject to the terms and conditions as enunciated in Department of Personnel & Training's Order No. 4/4/2007-C.S. I dated 26.11.2007.

R. K. KUREEL, Under Secy.

-----  
New Delhi, the 5th February 2008

No. A-19011/03/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Ms. Bandana Banerjee, a regular Section Officer of

Central Secretariat Service as Under Secretary on ad-hoc basis in the Department of Chemicals & Petrochemicals in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the afternoon of 28th January, 2008.

2. The aforesaid ad-hoc appointment is subject to the terms and conditions as enunciated in Department of Personnel & Training's Order No. 5/17/2007-C.S. I (Desk), dated 27th September 2007.

ROSHAN LAL, Under Secy.

---

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 6th November 2006

No. A-12011/8/2007-HR-II.—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar Sinha, IFS (J&K : 93) as Deputy Secretary in the Department of Fertilizers on central Deputation Basis w.e.f. 05.11.2007 (A/N) for a period of four years or until further orders whichever event takes place earlier.

M. SUBRAMANIAN, Under Secy.

-----  
The 10th January 2008

No. A-23011/1/2007-HR-II.—In terms of instruction issued by the Department of Personnel and Training vide their O.M. No. 7/16/2007-CS-I(S), dated 18.09.2007 and 01.01.2008, the President is pleased to appoint Shri Kailash, a regular Assistant belonging to Select List-1993 and borne on the combined cadre comprising of the Department of Fertilizers and Department of Chemicals and Petrochemicals as Section Officer of Central Secretariat Service on purely ad hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. the forenoon of 10.01.2008 for a period upto 30.06.2008 or till regular Section Officers of CSS are made available by the DoPT through normal channel of promotion, whichever is earlier.

2. This ad hoc promotion shall not confirm any right to continue in the Grade indefinitely or inclusion in the Select List for the regular appointment or to claim seniority in the Section Officer Grade.

3. Shri Kailash is posted in the Deptt. of Chemicals & Petrochemicals w.e.f. 10.01.2008 (FN).

M. SUBRAMANIAN, Under Secy.

---

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 7th February 2008

No. A-15012/1/2005-Admn.—Consequent upon his promotion to Grade I (Under Secretary) of CSS vide Ministry of Personnel, P.G. and Pensions, Department of Personnel and Training's Order No. 5/20/2007-CS.I (Desk) dated 6th February, 2008, Shri Chandra Shekhar Prasad, Section Officer of Ministry of Coal has been appointed as Under Secretary purely on adhoc basis in the Ministry of Coal w.e.f. 07.02.2008 (FN) until further orders.

V. S. RANA Under Secy.



MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC  
DISTRIBUTION  
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 4th February 2008

No. A-12015/2/2003-Estt.—In continuation of this Department's Notification of even number dated 27.07.2007, the term of ad hoc appointment of Shri Sukhdev Sharma, Smt. J. Begga and Shri K. N. Kohli as Steno Grade 'A&B' [Meged (Private Secretary)] is extended upto 30.06.2008 or till regular Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS become available and until further orders, whichever is earliest. Other terms and conditions will be same as issued earlier.

2. This issues with the concurrence of DoP&T vide their No. 5/8/2006-CS.II dated 8th January, 2008.

PREMA BHATT, Under Secy.

The 8th February 2008

No. A-12011/10/2003-Estt.—In pursuance of DoP&T's O.M. No. 5/18/2006-CS.II dated 16.11.2007 and Director General of Civil Aviation's Office Order No. 3/2008 (F. No. A-20016/3/77-EII (Vol.III) dated 28.01.2008, the President is pleased to promote Shri R.K. Kohli a regular Steno. Grade 'C' of CSSS and ad hoc Steno. Grade 'A&B' (Merged) in the Director General of Civil Aviation as Steno. Grade 'A&B' (Merged) on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- w.e.f. 28.01.2008 (F/N) to 30.06.2008 or till regular Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS become available and until further orders, whichever is earliest.

2. The ad-hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Steno. Grade 'A&B' (Merged). Ad-hoc appointment will be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

PREMA BHATT, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110 016 the 31st January 2008

No. A-19014/14/84-Admn. I(A).—The President is pleased to retire the following Scientists 'G' in the Department of Science & Technology from Government service on attaining the age of superannuation on 31st January, 2008 (AN):—

1. Dr. (Mrs.) Malti Goel
2. Shri C.R. Murthy

S. P. KATNAURIA, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110 003, the 23rd January 2008

No. A-32012/1/2007-P-I(.)—The President is pleased to appoint Dr. C. Kaliaperumal, Scientists "D" (Rs. 12,000-375-16,500/-) in the Ministry of Environment and Forests as Scientist "E" in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/-, on promotion under the modified Flexible Complementing Scheme (FCS), with effect from 14.01.2008 (forenoon) until further orders.

M. L. WADHWANI, Under Secy.

New Delhi-110 003, the 29th January 2008

No. A-12012/4/2005-P-II(.)—The President is pleased to appoint Smt. Malti Rawat, Section Officer of the Ministry of Earth Sciences, to Grade-1 (Under Secretary) of ESS purely on ad-hoc Basis in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- in the Ministry of Environment & Forests with effect from the afternoon of 17.01.2008 or until further orders, consequent on being approved for appointment to the Grade of Under Secretary vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/20/2007-CS.I (Desk) dated 16th January, 2008.

2. The ad-hoc promotion is subject to the following conditions.

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.
- (iii) The appointment shall further be subject to the order, dated 11.01.2007 of the CAT, Principal Bench, New Delhi in M.A. No. 2793/2005, M.A.2170/2006, O.A. No. 2710/2005.

PREMA MOHAN, Under Secy.

No. A-12012/4/2005-P-II(.)—The President is pleased to appoint Shri Hemant Kumar Srivastava, Section Officer of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, to Grade-1 (Under Secretary) of ESS purely on ad-hoc Basis in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- in the Ministry of Environment & Forests with effect from the forenoon of 23.01.2008 or until further orders, consequent on being approved for appointment to the Grade of Under Secretary vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/20/2007-CS.I (Desk) dated 16th January, 2008.

2. The ad-hoc promotion is subject to the following conditions.

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

- (iii) The appointment shall further be subject to the order, dated 11.01.2007 of the CAT, Principal Bench, New Delhi in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

PREMA MOHAN, Under Secy.

The 4th February 2008

No. A-12012/4/2005-P-II(.)—The President is pleased to appoint Shri P. S. Rana, Section Officer of the Ministry of Health & Family Welfare, Department of Health & Family Welfare to Grade-I (Under Secretary) of CSS purely on ad-hoc Basis in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- in the Ministry of Environment & Forests with effect from the afternoon of 29.01.2008 or until further orders, consequent on being approved for appointment to the Grade of Under Secretary of CSS vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/20/2007-CS.I (Desk) dated 16th January, 2008.

2. The ad-hoc promotion is subject to the following conditions.

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.
- (iii) The appointment shall further be subject to the order, dated 11.01.2007 of the CAT, Principal Bench, New Delhi in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

PREMA MOHAN, Under Secy.

The 5th February 2008

No. A-32012/2/2001-P-II(.)—In pursuance of DoP&T's O.M. No. 5/8/2006-CS.II dated 8th January 2008, the term of ad hoc appointment of the following Stenos Grade 'C' of the CSSS Cadre, as Steno Grade 'A' & 'B' (Merged) (Designated as PS) of CSSS in the Ministry of Environment & Forests, in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- is extended for the period indicated against their names or till regular Stenos Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS become available, whichever is earlier:—

Sl. No.	Name	Period for which extension has been granted
1	2	3
	S/Shri	
1.	Neelam Talwar	31.12.2007 to 30.6.2008
2.	Sushma Chopra	31.12.2007 to 30.6.2008

1	2	3
3.	Usha Rani Seth	31.12.2007 to 30.6.2008
4.	Vijay Kumar	31.12.2007 to 30.6.2008
5.	Anuradha Nippani	31.12.2007 to 30.6.2008
6.	R. C. Seth	31.12.2007 to 30.6.2008
7.	Ajay Kumar	31.12.2007 to 30.6.2008
8.	Rajesh Sajlani	31.12.2007 to 30.6.2008
9.	Shyam Kishore	31.12.2007 to 30.6.2008
10.	S. T. Moorjani	31.12.2007 to 30.6.2008
11.	Urmil Nangia	31.12.2007 to 30.6.2008
12.	Raj Kumari	31.12.2007 to 30.6.2008
13.	Ved Ram	31.12.2007 to 30.6.2008
14.	M. S. Bhakuni	31.12.2007 to 30.6.2008
15.	Pramod Sharma	31.12.2007 to 30.6.2008
16.	Rajendran A. R.	31.12.2007 to 30.6.2008
17.	P. K. Mahna	31.12.2007 to 30.6.2008
18.	V. K. Panthari	31.12.2007 to 30.6.2008
19.	Sanjay Sood	31.12.2007 to 30.6.2008
20.	V. K. Khurana	31.12.2007 to 30.6.2008
21.	Sunita Elawadhi	31.12.2007 to 30.6.2008
22.	Roop Kishore	31.12.2007 to 30.6.2008
23.	Mahender Kumar	31.12.2007 to 30.6.2008

2. The ad-hoc promotion/appointment is subject to the following conditions:—

- (i) The ad-hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) (PS) of CSSS.
- (ii) Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

PREMA MOHAN, Under Secretary

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 31st January, 2008

No. A-12025/23/2006-CHS-IV.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Kumari Usha Rani to the post Specialist Grade-

II (Obst. & Gynae) in Non Teaching Specialist sub cadre of Central Health Service on probation w.e.f. the forenoon of 16th July, 2007 until further orders.

RAM LAL, Under Secy.

No.A.12025/23/2007-CHS.IV.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Shalini Malhotra to the post of specialist Grade-II (Microbiology) in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service, on probation as specialist Grade-II (Microbiology) w.e.f. the forenoon of the 26th November, 2007 until further orders.

RAM LAL, Under Secy.

No.A.12025/22/2007-CHS.IV.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr.(Smt) Renu Goyal to the post of specialist Grade-II (Microbiology) in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service, on probation as specialist Grade-II (Microbiology) w.e.f. the afternoon of the 27th September, 2007 until further orders.

RAM LAL, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF HEALTH & FW

New Delhi, the 28th January 2008

No. A.22013/1/2007-E.I.—Consequent upon his promotion to Grade-I (Under Secretary) of CSS on adhoc basis vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/20/2007-CS.I(Desk) dated 16.1.2008, the President is pleased to appoint Shri Sudhir Kumar, Section Officer in the Legislative Department, as Under Secretary in the Department of Health & FW, purely on ad hoc basis w.e.f. the forenoon of 18.01.2008 and until further orders. The ad hoc promotion is subject to the following condition :—

1. The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appoint or to claim seniority in the Grade-I.

2. Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

The 29th January 2008

No. A.38013/05/2007-Estt.I.—Smt. Manjeet Kaur Jolly, working as Section Officer on ad hoc basis in the Department of Health & Family Welfare, expired on 04.01.2008. The name of late Smt. Manjeet Kaur Jolly is struck off from the rolls of the Department of Health & FW w.e.f. 04.01.2008.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF AGRICULTURE (DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 9th January 2008

No. 12022/1/2007-E.I.—Consequent upon inclusion of her name in the Select List of Steno Grade A&B (Merged) of CSSS for the year 2004 against Seniority Quota, the President is pleased to appoint Smt. Chander Kala Bawari, a regular Steno Grade 'C' of CSSS borne on the cadre of Ministry of Information & Broadcastig to the post of Steno Grade A&B (Merged) (PS) (Rs. 6,500—10,500/-) on regular basis in the Department of Agriculture & Cooperation with effect from the forenoon of 14.12.2007.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 24th January 2008

No. 27-2761/2007-Estt.I.—The President is pleased to appoint Dr. C. V. Ananda Bose, IAS (KL : 77), as Additional Secretary, Department of Agriculture & Cooperation in the Ministry of Agriculture in the Pay scale of Rs. 22,400-525-24,500/- with effect from the forenoon of 23rd January, 2008.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 28th January 2008

No. 12022/9/2007-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Ranjan Khanna, IRS (C&CES-94) as Private Secretary to Hon'ble Minister of State for Agriculture (Shri Kanti Lal Bhuria) in the Department of Agriculture & Cooperation at the level of Deputy Secretary wef the forenoon of 14.01.2008 for a period of five years or till he ceases to function as Private Secretary to Minister or until further orders, whichever event takes place earlier.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 29th January 2008

No. 27-2760/2008-Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri N. K. sinha Under Secretary on adhoc basis, Department of Agriculture & Cooperation in the Ministry of Agriculture, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the afternoon of 21st January 2008 until further orders.

2. the adhoc promotion shall not confer any right on the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 31st January 2008

No. 38012/16/2007-Estt.I.—Shri W. C. Punia, Section Officer in the Department of Agriculture and Cooperation will retire from Government Service with effect from the afternoon of 31st January, 2008 on attaining the age of superannuation.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

No. 38012/17/2007-E-I.—Shri S. P. Verma, Principal Private Secretary in the Department of Agriculture and Cooperation will retire from Government Service with effect from the afternoon of 31st January, 2008 on attaining the age of superannuation.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

No. 38012/18/2007-E-I.—Shri M. L. Ahuja, Private Secretary in the Department of Agriculture and Cooperation will retire from Government Service with effect from the afternoon of 31st January, 2008 on attaining the age of superannuation.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 31st January 2008

No. 4-5/2004-Extn.—The President is pleased to appoint Dr. K. K. Arora, Deputy Director (S&R), Indain Grain Storage Management and Research Institute, Hapur as Director (Administration), G.C.S., Group 'A' Gazetted in the Pay Scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Directorate of Extension, Deptt. of Agriculture & Cooperation, on deputation basis, for a period of three years, with effect from the forenoon of 21st January, 2008 or until further orders, whichever event takes place earlier.

RANI TALREJA, Under Secy.

New Delhi, the 31st December 2007

No. A-19012/11/2006-EA.—Consequent upon attaining the age of superannuation, Dr. Ajit Kumar Neog an Higher Administrative Grade Officer of Indian Economic Service and posted as Economic and Statistical Adviser, Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, stands retired from Government Service with effect from 31.12.2007 (AN).

K. SANJAYAN, Under Secy.

The 24th January 2008

No. A-12023/10/2000-E.II.—With the approval of competent authority, the deputation period of Shri Shashi Kumar Bhatia on the post of Additional Commissioner (Hort. Fruit) (Rs. 14,300-400-18,300/-) (GCS Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial) in the Department of Agriculture & Cooperation is extended for one year w.e.f. 1.12.2007 to 30.11.2008 (AN) or until further orders whichever is earlier.

K. SANJAYAN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY DAIRYING & FISHERIES)

New Delhi, the 16th January 2008

No. 5-11/2006-Admn.IV.—The President is pleased to appoint Shri Moti Lal, Milk Distribution Officer, Delhi Milk Scheme, on promotion to the post of Deputy Manager (Distribution) in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/- on

officiating basis with effect from 16.11.2007 (FN) in Delhi Milk Scheme, a subordinate office of Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries.

Shri Moti Lal will be on probation for a period of two years from 16.11.2007.

M. R. SHARMA, Under Secy.

#### MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 30th January 2008

No. 5-1/2007-Admn (Pt.).—The President is pleased to appoint Shri D. V. K. Rao of Central Secretariat as Under Secretary (Grade-I), on ad hoc basis in the Ministry of Women and Child Development, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 18.01.2008 i.e., the date from which he has assumed the charge of the said post.

2. The appointment will be subject to relevant conditions prescribed in DoPT's Order No. 5-20/2007-CS.I(Desk).

Smt. SHAKUNTALA JAIN, Under Secy.

The 31st January 2008

No. 3-9/2002-Admn.—The President is pleased to appoint Ms. Kusum Mishra, IES(96) as Deputy Secretary in the National Commission for Women for a period of four years with effect from 01.11.2007 (FN) i.e. the date on which she assumed the charge of the post.

Smt. SHAKUNTALA JAIN, Under Secy.

#### MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 6th February 2008

No. A.19011/01/2008-Estt.—Consequent on his promotion to the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Services (CSS) on ad hoc basis and posting in the Ministry of Culture vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/20/2007-CS.I (Desk) dated 16th January 2008, Shri Dipankar Dutta assumed the charge of Under Secretary in the Ministry on 28.01.2008 (FN).

A. MURUGAIYAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS & IT (DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 21st January 2008

No. 400-52/2002-STG-III.—Shri Rajesh Pradhan (Staff No. 2165), an officer of Senior Administrative Grade of Indian Telecommunications Service Group 'A', who was working as General Manager in Northern Telecom Region of Bharat Sanchar Nigam Ltd., expired on 29.11.2007.

AMARJIT SINGH, Under Secy.

#### (DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 29th January 2008

No. 3(3)/2006-Pers.I.—The President is pleased to appoint on promotion the following Scientist 'E' of this

Department as Scientist 'F' in the scale of pay of Rs. 16,400-450-20,000/- in the Department of Information & Technology w.e.f. 21.01.2008 (F.N.) :

- (i) Shri A. S. Snadhoo (E. Code—121)
- (ii) Shri Deepak Chopra (E. Code—126)
- (iii) Shri S. C. Dey (E. Code—193)
- (iv) Shri Muni Ram (E. Code—180)
- (v) Shri S. Sivasubramanian (E. Code—192)

GIRISH SAHAI, Dy. Director

The 4th February 2008

No. 2(8)/2007-Pers.I (Vol.II).—The President is pleased to appoint Shri Sani Abhilash G.I., (E. Code-958) as Scientist 'B' in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity in the Department of Information Technology with effect from the forenoon of 04-02-2008.

2. He will draw pay at the minimum of the above scale of pay.

3. He will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

GIRISH SAHAI, Dy. Director

**DEPARTMENT OF POSTS  
OFFICE OF THE CHIEF POST MASTER GENERAL,  
M. P. CIRCLE**

Bhopal, the 18th January 2008

Subject : Promotion and Posting in ASP Cadre in M.P. Circle.

No. STA 18-1/ASP/2008.—The Chief P.M.G., M.P. Circle, Bhopal is pleased to appoint the following Inspectors on regular basis in ASP Cadre in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the date of assumption of charge and until further orders.

2. The officers on promotion in ASP Cadre are allotted to the Region mentioned against each :—

Sl	Name	SC/ ST	Present Division/Unit	Region allotted
1	2	3	4	5
	S/Shri			
1	M. K. Maheshwari		Sehore	Indore
2	N. K. Soni		C.O. Bhopal	HQ
3	H. G. Namdeo		Shahdol	HQ
4	L. K. Mithankhedhiwal		Indore City Dn.	Indore
5	P. N. Shukla,		Chhatarpur	HQ
6	A. K. Jain-II		RMS "JB" Dn.	Indore (Jabalpur Dn.)

1	2	3	4	5
	S/Shri			
7.	V. K. Gautam		Rewa	HQ
8.	H. S. Pandey		Khandwa	Indore
9.	P. K. Bahulkar		Ujjain	Indore
10.	V. K. Jain		Sagar	HQ
11.	R. K. Tripathi		Chhindwara	HQ
12.	A. N. Mishra		APS	APS
13.	K. R. Patel		RMS "JB" Dn.	Indore (Jabalpur Dn.)
14.	R. L. Sharma		C. O. Bhopal	HQ
15.	A. R. Deshmukh		SPC Bhopal	HQ
16.	H. P. Dwivedi		APS	APS
17.	R. S. Chouhan		Chhatarpur	HQ
18.	S. S. Verma		APS	APS
19.	A. K. Tiwari		Hoshangabad	Indore (Jabalpur Dn.)
20.	K. S. Tomar	SC	Sehore	Indore
21.	R. P. Jaiswal		Hoshangabad	HQ
22.	K. K. Sharma		RMS M.P. Dn.	HQ
23.	S. K. Dubey		APS	APS
24.	P. K. Shrivastava		Ujjain	Indore

**3. General Conditions ;**

- (i) No re-allotment requests will be considered within a period of one year. Leave taken during this period will not be counted for calculation of one year period considering requests for re-allotment.
- (ii) It is the officer's responsibility to send a copy of the charge report on assumption of charge on promoted post to APMG (Staff) C.O. Bhopal for record purpose.
- (iii) If there are grievances regarding seniority or any other complaint, representations, if any, should be made within 15 days from the date of issue of this order.
- (iv) A.D. (Staff) Indore will please issue posting orders in respect of the officials allotted to Indore Region.
- (v) Officers should be relieved within 30 days from the date of issue of posting order.
- (vi) In case, an officer is not willing to accept his promotion, his declination letter in writing should be received in C. O. Bhopal within 30 days from the date of issue of posting order, failing which, it will be presumed that he has declined the promotion.

**4. Vigilance/Disciplinary case, if any :—**

In case, any vig./disc. case is pending against the officials, they should not be relieved for posting without obtaining specific orders from this office. The official against whom any punishment is current, they should not be promoted before expiry of currency of punishment. A report in this regard be submitted immediately.

## 5. Option for fixation of pay :

If the officer who wishes to give option for choosing date for fixation of pay under FR 22(I)(a)(1) should do so within one month from the date of promotion.

The officials who have been granted second financial up-gradation under the scheme of ACP, are not entitled for pay fixation on promotion to ASP Cadre.

G. R. DHOTE, Asstt. Postmaster General (Staff)

MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 5th February 2008

No. FRB-I/2007/2/66.—Shri Sudesh Kumar, HAG/IRSEE, Adviser (Electrical), Railway Board, is appointed as Additional Member (Electrical), Railway Board in the Grade of Rs. 24,050—26,000/- with effect from the forenoon of 07.01.2008.

MATHEW JOHN, Secy., (Railway Board)

No. ERB-I/2006/2/28.—Shri R. D. Choudhury, SG/IRPS, Director, Pay Commission, Railway Board, is appointed as Executive Director (ERP), Railway Board in the Grade of Rs. 18,400—22,400/- with effect from the forenoon of 28.01.2008.

MATHEW JOHN, Secy., (Railway Board)

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT &  
HIGHWAYS  
(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 5th February 2008

No. A-19011/805/2001-E-I.—On attaining the age of superannuation, Shri P. S. Rana, Director, a Senior Selection Grade Officer of Central Secretariat Service (CSS) in the Department of Road Transport & Highways has retired from Government Service w.e.f. 31.1.2008 (A.N.).

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

The 6th February 2008

No. A-38013/6/2007-E-I.—Shri Surta Ram, an officer of Central Secretariat Service and working as Section Officer on ad-hoc basis in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, Department of Road Transport & Highways has retired on attaining the age of superannuation w.e.f. 31.1.2008 (A.N.).

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

New Delhi, the 6th February 2008

No. A-32014/1/2005-E-II.(B).—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of 2004 of Steno Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS vide Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel &

Training's O.M. No. 5-18/2006-CS.II dated 16.11.2007, the President is pleased to appoint the following Steno Grade 'C' of CSSS, presently working as Private Secretary on ad-hoc basis in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, as Private Secretary on regular basis in the same Ministry in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 07.12.2007:—

1. Smt. Kamlesh Khattar
2. Shri Kamal Singh
3. Smt. Anita Saroj

VIRENDERA MOHAN, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 1st February 2008

No. 04/2008 (F. No. 2/5/07-Adm.II).—In pursuance of the Department of Personnel & Training's Orders No. 4/4/2007-CS.I dated 10.1.2008 and 11.01.2008, Shri Khichan Lal, CSS, Under Secretary, Ministry of Power, is appointed to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS, purely on ad-hoc basis, in the Ministry of Power in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from the forenoon of the 1st February, 2008 until further orders, by upgrading the post of Under Secretary held by him as Deputy Secretary, on personal basis.

2. The ad-hoc promotion of Shri Khichan Lal to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS shall be subject to the terms and conditions laid down in the Department of Personnel & Training's Order dated 10.01.2008 referred above.

CHANDAN MUKHERJEE, Under Secy.

No. 05/2008 (F. No. A-32013/3/2005-Adm. I).—The President is pleased to appoint the following officers of the Central Power Engineering (Group 'A') Service in absentia to the grade of Senior Time Scale of the same Service (Deputy Director (Engineering)/(Executive Engineer), in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/-, in the Central Electricity Authority, with effect from the dates mentioned against their names, until further orders : —

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment
	S/Shri	
1.	H. K. Pandey	15th December, 2005 (FN)
2.	Jainath Prasad	14th November, 2005 (FN)
3.	K.B. Jagtap	14th November, 2005 (FN)

CHANDAN MUKHERJEE, Under Secy.

No. 05/2008. F. No. 2.7/2007-Adm. II.—The President is pleased to appoint Shri Ajit Kumar, Section Officer, Ministry of Textiles, to the Grade-I (Under Secretary) of CSS of the

Ministry of Power, on ad-hoc basis, with effect from the afternoon of the 1st February, 2008 until further orders. The said appointment shall be governed by the terms and conditions contained in the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/20/2007-CS.I (Desk) dated 16th January 2008.

CHANDAN MUKHERJEE, Under Secy.

No. 06/2008 (F. No. 12/4/2007-Adm. II.).—On attaining the age of superannuation, Shri L.D. Sehra, Under Secretary, Ministry of Power retired from Government Service in the afternoon of the 31st January, 2008.

CHANDAN MUKHERJEE, Under Secy.

The 5th February 2008

No. 06/2008. (F. No. A-32013/1/2006-Adm.I).—The President is pleased to appoint Shri Ravinder, an officer of the Central Power Engineering (Group 'A') Service in absentia to the Senior Administrative Grade (Chief Engineer/Member Secretary (Regional Power Committee)/Secretary, Central Electricity Board) of the same Service, in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- in the Central Electricity Authority, with effect from the forenoon of the 22nd June, 2006, until further orders.

CHANDAN MUKHERJEE, Under Secy.

#### MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 1st December 2007

No. 31/2007 (F. No. 1/1/2005-Admn.).—The President is pleased to appoint Shri H. S. Choudhary, CSS (CSL No. 3373) to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis for the Select List year 2001 in pursuance of DoPT's O.M. No. 4/1/2007-C.S.I(D) dated 7th November, 2007.

N. K. GUPTA, Under Secy.

No. 32/2007 (F. No. 1/1/2005-Admn.).—The President is pleased to appoint Shri Anup Seth, CSS (CSL No. 3493) to the Selection Grade of CSS on regular basis for the Select List year 2002 in pursuance of DoPT's O.M. No. 4/1/2007-C.S.I(D) dated 7th November, 2007.

N. K. GUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 3rd December 2007

No. 33/2007 (F. No. 20/28/2003-Admn.).—Consequent upon his promotion as Deputy Secretary on ad hoc basis ordered vide DoPT's O.M. No. 4/4/2007-CS.I dated 26th November, 2007, the President is pleased to appoint Shri

Sohan Singh Saini, Under Secretary (Select List 1997) in the Ministry of Water Resources as Deputy Secretary with immediate effect, until further orders, by upgrading one CSS post of Under Secretary to the grade of Deputy Secretary (Pay Scale Rs. 12,000-375-16,500/-) as personal to the incumbent.

SAT PAL, Director (Admn.)

The 25th January 2008

No. 3/2008 (F. No. 11/5/2007-Admn.).—In pursuance of Section-5(2) of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the following officers are designated as Central Public Information Officers in respect of matters as indicated against each in the Main Secretariat of the Ministry of Water Resources, as enumerated below :—

S. No.	Name & Designation	Name of the Wing
	S/Shri	
1.	Srikanta Panda, Director	Finance
2.	Rajeev Kumar, Director	Ground Water

SAT PAL, Director (Admn.)

New Delhi, the 7th February 2008

No. 2/2008 (F. No. 30/6/2007-E.I.).—Consequent upon acceptance of resignation from Central Water Engineering (Group-A) Service, Shri Vishal Dashrath Jaronde, Assistant Director/Assistant Executive Engineer, Central Water Commission is relieved of his duties with effect from 07.12.2007 (AN).

K. RAJAPPA, Under Secy.

#### MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 31st January 2008

No. 704/7/2007-B(D).—Consequent upon his selection by the Public Enterprises Selection Board, the President is pleased to appoint Shri I. S. Mehla, Director (Engg.), All India Radio as Director (O&M), M/s. Broadcast Engineering Consultants India Ltd. (BECIL), a public sector undertaking under the administrative control of Ministry of Information and Broadcasting with effect from 28-01-2008 (F.N.) in the scale of pay of Rs. 20,500-500-25,000/- on immediate absorption basis for the period of five years, or till the date of his superannuation, whichever is earlier.

GIRISH CHAND, Under Secy.